



डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए केंद्र ने गठित की उच्चस्तरीय समिति - 7



वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल बोले- भारत अमेरिका व्यापार समझौते के करीब- 10



ट्रंप का रुख बदला, अब बोले- ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकीं- 11



लक्ष्य सेन इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत व प्रणय बाहर- 12

आज का मौसम

18.0°

अधिकतम तापमान

8.0°

न्यूनतम तापमान

सूर्योदय

06.58

सूर्यास्त

05.39

माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 10:22 उपरांत चतुर्दशी विक्रम संवत 2082

लखनऊ

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, वर्ष 35, अंक 347, पृष्ठ 12+4

मूल्य 6 रुपये



2 राज्य | 6 संस्करण

- लखनऊ

बरेली

कानपुर

मुरादाबाद

अयोध्या

हल्द्वानी



प्रयागराज : मकर संक्रांति पर संगम में आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु।

● एजेसी

गोरखनाथ से संगम तक आस्था का सैलाब

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- प्रदेश में उल्लास से मनाया गया मकर संक्रांति—खिचड़ी महापर्व
- सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को अर्पित की खिचड़ी

अमृत विचार : सामाजिक समरसता और सनातन आस्था का महापर्व मकर संक्रांति—खिचड़ी उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। गोरखनाथ से लेकर संगम तक आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा।

गोरखपुर में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधिविधान से खिचड़ी अर्पित की और लोकमंगल, सुख-समृद्धि की कामना की। उधर, प्रयागराज संगम में एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने हर-हर

काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट और नैमिषारण्य में उमड़ें लाखों श्रद्धालु

वाराणसी में गंगा घाटों पर, अयोध्या में सरयू तट पर, मथुरा में यमुना घाटों पर, वृंदावन में यमुना किनारे, चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर और नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। इसके अलावा बस्ती, बलिया, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर जैसे जिलों में भी गंगा, सरयू, गोमती और यमुना तटों पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला।

माघ मेले में चर्चा में रहे सतुआ बाबा

माघ मेले में जगतगुरु संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा भी सुर्खियों में रहे। बुलडोजर पर सवारी करते हुए उनका मेला भ्रमण चर्चा का विषय बना। उन्होंने श्रद्धालुओं से 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के महान्दान में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।

से 2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडो, निगरानी रही। कल्पवासियों की साधना और हठयोगियों के तप ने माघ मेले को अलौकिक स्वरूप दिया।

ब्रीफ न्यूज

दिल्ली : लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े दो शार्पशूटर पकड़े गए

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े बाइक सवार दो शार्पशूटरों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों पर राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुई गोलीबारी की दो घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। आरोपियों ने सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात दो अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी की थी। पकड़े गए आरोपियों में से एक व्यक्ति नाबालिग है और दूसरे की पहचान दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उत्तरी दिल्ली में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दोनों को पकड़ा गया।

जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में आतंकी सरगना की संपत्ति कुर्क की

मंडर/पुंछ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को पुंछ जिले में, पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी सरगना की अवसंपत्ति कुर्क कर दी। मंडी पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में अदालत के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्ति मंडी तहसील में स्थित 10 कनाल और 14 मरला (लगभग 58,261.5 वर्ग फुट) जमीन है, जिसका अनुमानित मूल्य 22.05 लाख रुपये है। यह जमीन चैंबर कनारी निवासी अब्दुल अजीज की है। वह वर्तमान में पाकिस्तान में आतंकी सरगना के रूप में सक्रिय है।

ईरान का हवाई क्षेत्र बंद होने से एअर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानें रद्द

नई दिल्ली। ईरान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण एअर इंडिया और इंडिगो ने गुरुवार को अपनी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका और यूरोप जाने वाली एअर इंडिया की उड़ानें व सीआईएस देशों, यूरोप और तुर्किये के लिए इंडिगो की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्प्राइसजेट ने भी परामर्श जारी करते हुए कहा कि ईरान

का हवाई क्षेत्र बंद होने से कुछ उड़ानों पर असर पड़ेगा। टाटा समूह की एअर इंडिया ने अमेरिका के लिए तीन उड़ानें रद्द कर दी हैं, जबकि यूरोप के लिए उसकी कुछ सेवाओं के संचालन में देरी होगी। तीन उड़ानें- दिल्ली से न्यूयॉर्क और नेवाक के लिए दो तथा मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए एक उड़ान रद्द की गई हैं। सीआईएस देशों, यूरोप और तुर्किये के लिए इंडिगो की उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं।

नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म करने वाला इंटरन डॉक्टर गिरफ्तार

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: कैसरबाग पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी इंटरन डॉ. मोहम्मद आदिल गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ नर्सिंग छात्रा ने शारीरिक शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से जेल भेज दिया गया है।

इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी डॉ. आदिल कैसरबाग स्थित आगा साहब की कोठी स्थित फ्लैट में रहकर



केजीएमयू से इंटरनशिप कर रहा है। पुलिस के मुताबिक अलीगंज स्थित पीजी में रहने वाली एक छात्रा की कुछ समय पहले आरोपित मो. आदिल से मुलाकात हुई थी। छात्रा ने आरोप लगाया कि आदिल ने उससे दोस्ती की। दोस्ती के बाद उसने प्रेमजाल में फंसाया और उसके बाद शादी का झांसा देकर अपने फ्लैट में बुलाया। वहां डाक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली। पीछिठा ने जब आरोपित पर शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। बात बढ़ने पर आरोपी ने छात्रा से गाली-गलौज करते हुए अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। नर्सिंग छात्रा ने 29 दिसंबर

- कैसरबाग पुलिस ने आरोपी को रेडक्रास अस्पताल के पास से दबोचा

को कैसरबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पीछिठा का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया गया। रिपोर्ट दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक केजीएमयू में पढ़ाई के दौरान कहीं आदिल दुष्कर्म, गर्भपात व मतान्तरण के मामले में जेल भेजे गए डाक्टर रमीजूद्दीन के संपर्क में तो नहीं था। पता लगाया जा रहा है। अगर कनेक्शन मिलता है, तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एग्जिट पोल में बीजेपी-शिंदे सेना का बीएमसी पर कब्जा

मुंबई, एजेंसी

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान के बाद आए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के 3 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं।

बहुमत के लिए 114 की जरूरत है। वहीं, कांग्रेस गठबंधन को 60 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें आ सकती हैं। नतीजे शुक्रवार को आएंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने कहा कि सभी नगर निगम में शाम 5:30 वोटिंग खत्म हुई। करीब 50% मतदान का अनुमान है हालांकि अंतिम आंकड़े बाद में जारी होंगे।

- उद्भव और राज ठाकरे रहेंगे विपक्ष में, शाम साढ़े पांच बजे तक 50 प्रतिशत हुआ मतदान

उंगली की स्याही मिटाने का वीडियो वायरल होने पर बवाल, जांच शुरू

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि बीएमसी चुनाव में मतदान के दौरान उंगलियों पर लगाई गई स्याही लोगों द्वारा मिटाए जाने के वायरल वीडियो की जांच चल रही है और झूठा विमर्श फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर आम मतदाताओं, नेताओं के ऐसे कई वीडियो सामने आये, जिनमें वे मतदान के बाद अपनी उंगलियों पर लगी पक्की स्याही को एसीटोन से मिटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाघमारे ने कहा कि स्याही को सूखने में समय लगता है और इसे मिटाना नहीं चाहिए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 96.92 करोड़ स्वीकृत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देने और फसल नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 96.92 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी और अधिक से अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा।

वर्तमान रबी सीजन (2025-26) में किसानों के बीच इस योजना के प्रति भारी उत्साह है। प्रदेश के नौ लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र को इस बीमा के दायरे में लाया



जा चुका है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रबी फसलों के लिए किसानों को कुल प्रीमियम का मात्र 1.5 प्रतिशत हिस्सा देना होता है, जबकि शेष बड़ी धनराशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है। कृषि विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार धनराशि का सबसे बड़ा हिस्सा

93.88 करोड़ रुपये सब्सिडी मद के लिए निर्धारित किया गया है। इससे किसानों के बीमा प्रीमियम का भार कम होगा और बीमा कवरेज का दायरा बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि प्रीमियम सब्सिडी मिलने से अधिक किसान योजना से जुड़ेंगे और प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्हें समय

पर राहत मिल सकेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सुचारु संचालन के लिए प्रशासनिक और तकनीकी मदों में भी खर्च का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यात्रा व्यय के लिए 32 लाख, कार्यालय व्यय 40 लाख, फॉर्म व सामग्री की छपाई पर 40 लाख, फर्नीचर एवं उपकरणों पर

32 लाख, वाहनों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल पर 40 लाख, प्रशिक्षण व्यय पर आठ लाख और कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर समेत उनके अनुरक्षण पर 40-40 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे जिला और राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, निगरानी और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट से अफरा-तफरी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की गुरुवार को प्रेसवार्ता समाप्त होने के ठीक पहले अचानक शॉर्ट सर्किट से हो गई। हॉल में धुआं फैल गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया।

हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति संभाल ली। अग्नि सुरक्षा उपकरणों का



तत्काल उपयोग किया गया, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई। सुरक्षाकर्मियों ने घेरा बनाकर मायावती को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को तकनीकी खराबी से जुड़ा बताया जा रहा है।

- कहा- भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत बनाया



भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्पात निर्माता

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात निर्माता भी है और तीसरा सबसे बड़ा स्टाट अप इकोसिस्टम है। मोदी ने कहा कि देश में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार, चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। यह सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश भी है।

टिक पाएगा या नहीं। हालांकि, यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति बन गई। प्रधानमंत्री ने कहा, यह भी संशय था कि लोकतंत्र ने जड़ें जमा भी लीं, तो भी भारत को आगे बढ़ने में मुश्किल होगी।



न्यूज़ ब्रीफ

सपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 40 हजार रुपये

अमृत विचार, लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश



में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही बुलडोजर का पता नहीं चलेगा। यूपी की जनता भाजपा को डिटेशन सेंटर में भेज देगी। 2027 में सपा सरकार बनने पर किसानों, नौजवानों, गरीबों, महिलाओं के हित में काम होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार कर विकास होगा। गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये दिया जायेगा। सपा जो वादा करती है, उसे पूरा करती है। सपा प्रमुख पार्टी मुख्यालय पर गुरुवार को विभिन्न जिलों से आये नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा जब कमजोर होती है तो और भांप्रदायिक हो जाती है। भाजपा नेता 'आरोप जीवी' हैं। इन लोगों का काम सिर्फ सपा पर आरोप लगाना है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार में महिलाओं को पेंशन दी गई थी। छात्रों को कन्या विद्या धन दिया गया था। बहन बैटियों की सुरक्षा के लिए 1090 वूमन पावर लाइन शुरू की गई थी। 1102 और 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी।

सघन टीबी रोगी खोज अभियान फरवरी से

अमृत विचार, लखनऊ: फरवरी से प्रदेशभर में 100 दिवसीय विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए सांसदों से लेकर पार्षदों तक को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस संबंध में सभी अपर निदेशकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉ. पिंकी जोशल ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में सघन टीबी खोज अभियान वर्ष 2024 से चलाया जा रहा है, वर्ष 2015 की तुलना में प्रति एक लाख आबादी पर टीबी मरीजों की संख्या में 17 प्रतिशत और टीबी से होने वाली मृत्यु दर में भी 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए फरवरी से नया विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. आरपी सिंह सुमन ने कहा कि सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी दो माह में सांसदों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करें और उन्हें निःस्व शिविरों सहित जनजागरूकता कार्यक्रमों में शामिल करें।

नई नीति में डिस्टिलरी प्लांट को बढ़ावा

अमृत विचार, लखनऊ: प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने और राजस्व संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा नई आबकारी नीति 2026-27 को लेकर व्यापक मंथन किया जा रहा है। प्रस्तावित नीति के तहत प्रदेश में डिस्टिलरी प्लांट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रिपैरिट, अल्कोहल एवं इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने पहले ही आबकारी विभाग को राजस्व बढ़ाने और उद्योगों के लिए अकुल वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुगमन में नई नीति का प्राूप तैयार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत आबकारी नीति से जहां एक ओर राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा। नई आबकारी नीति में लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समायुद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

योगी ने सीटी बजाकर गुरु गोरखनाथ को किया प्रणाम

बाबा का खप्पर भरणे श्रद्धा की अंजुरी में खिचड़ी लेकर नेपाल-बिहार से लेकर देशभर से पहुंचे लाखों श्रद्धालु

राज्य ब्यूरो, लखनऊ/गोरखपुर

अमृत विचार: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर आस्था, परंपरा और लोकमंगल की विराट चेतना का साक्षी बना। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में गर्भगृह में भूमि पर बैठकर, सीटी बजाकर गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया। विधिविधान से श्रीनाथ जी का पूजन कर गोरक्षपीठ की ओर से खिचड़ी का भोग अर्पित किया। योगी द्वारा भोग अर्पण के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बाबा का खप्पर भरणे श्रद्धा की अंजुरी में खिचड़ी लेकर लाखों श्रद्धालु उमड़ें। पूरे दिन



गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा के समक्ष खिचड़ी का भोग अर्पित करते मुख्यमंत्री योगी।

कतारें लगी रही।

योगी ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ को नाथयंत्र की विशिष्ट

परंपरा के अनुसार पहले आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने मंदिर में विराजमान अन्य

देव विग्रहों का पूजन किया तथा योगिराज बाबा गंभीरनाथ, दादागुरु महंत दिग्विजयनाथ, गुरुदेव महंत



सीटी बजाकर गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करते मुख्यमंत्री योगी।

अवेद्यनाथ और अन्य नाथ योगियों की प्रतिमाओं के समक्ष शीश नवाकर भोग अर्पित किया।

भाजपा की बैठक में 2027 चुनाव के लक्ष्य तय

पार्टी की विचारधारा हर वर्ग तक पहुंचाने में विभागों-प्रकोष्ठों की निर्णायक भूमिका: पंकज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर गुरुवार को पार्टी के मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों के अध्यक्षों, महामंत्रियों व संयोजकों की बैठक में पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव-2027 के लक्ष्य तय किए गए।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि विभागों और प्रकोष्ठों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की भूमिका संगठन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संगठन में कोई भी दायित्व छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हर जिम्मेदारी समान रूप से महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता अपने परिश्रम, समर्पण और संगठनात्मक कौशल के बल पर पार्टी और समाज में विशिष्ट पहचान बनाता है। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने में विभागों और प्रकोष्ठों की निर्णायक भूमिका होती है, जिससे संगठन निरंतर मजबूत होता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के



प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, साथ में अन्य।

संगठन का संदेश जन-जन पहुंचाएं कार्यकर्ता: धर्मपाल

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता-आधारित और विचारधारा-प्रधान संगठन है। मोर्चा, विभाग और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पार्टी और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं। सरकार की योजनाओं और संगठन का संदेश जन-जन तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। इससे संगठन और समाज के बीच विश्वास और अधिक मजबूत होगा। बैठक का संचालन विभाग-प्रकोष्ठों के प्रभारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने किया।

उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, सुशासन,

बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण में नए मानक स्थापित हुए हैं।

पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी को 2017 से भी बड़ी और ऐतिहासिक विजय के

लक्ष्य के साथ अभी से जुटना होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है और भाजपा का जागरूक कार्यकर्ता झूठ व दुष्प्रचार का तथ्य और सच्चाई से जवाब देगा।

बसपा सरकार ने घोषणाओं को जमीन पर उतारा था

बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर प्रेस कांफ्रेंस कर गिनाई उपलब्धियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को अपना जन्मदिन पूरे देश में 'जनकल्याणकारी दिवस' के रूप में मनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीएसपी की चार बार की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल घोषणाएं नहीं कीं, बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारकर दिखाया, जिससे सर्वसमाज खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग की स्थिति में वास्तविक सुधार हुआ।

माल एवन्मू स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं की नकल आज केंद्र व राज्य सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर कर रही हैं, लेकिन नीयत सही न होने के कारण आमजन को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।



बसपा प्रमुख मायावती को उनके जन्मदिन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई देते पार्टी नेता आकाश आनंद, साथ में सतीशचंद्र मिश्रा व अन्य।

अमृत विचार

मायावती दीर्घायु हों: योगी

अमृत विचार, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा प्रमुख मायावती को जन्मदिन का बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को उन्होंने लिखा कि बहुतन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उग्र, की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है।

प्रेस कांफ्रेंस में धुआं गंभीर मामला: अखिलेश

अमृत विचार, लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रिमी मायावती को उनके 70 वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से जारी अपने संदेश में उनके स्वस्थ, स्वतंत्र और सक्रिय जीवन की कामना की। सपा प्रमुख ने मायावती की जन्मदिन प्रेस कांफ्रेंस के दौरान हुए धुएं के घटनाक्रम को गंभीर मामला बताया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की हर पहलू से जांच कराने की मांग की है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रेस कांफ्रेंस में अवांनक धुएं की घटना होना चिंताजनक है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, लखनऊ के दो गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: आजमगढ़ के साइबर थाने की टीम ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है। टीम ने टेलीग्राम के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम कर रहे दो आरोपियों को लखनऊ से बुधवार रात को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6.32 लाख रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, चेकबुक, कैश काउंटिंग मशीन, बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में संबंधित अधिकारी और फर्मों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

● आजमगढ़ जिले की साइबर थाने की पुलिस टीम ने किया खुलासा

आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में लखनऊ के जानकीपुरम का अभिषेक गुप्ता और इंदिरानगर संजय गांधीपुरम का शाश्वरत अवस्थी निवासी इंदिरा नगर, लखनऊ शामिल है। 18 सितंबर 2025 को थाना रौनापार क्षेत्र निवासी भूपेन्द्रनाथ यादव ने साइबर थाना आजमगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से

पूरे दिन नहीं टूटी कतारें

जयकारों से गुंजा परिसर

खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला पूरे दिन अहर्निश चलता रहा। भोर तीन बजे ही मंदिर परिसर से बाहर तक लंबी कतारें लग गई थीं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मंदिर एवं जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूरे दिन व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे।

योगी ने पूछा क्या चाहिए मासूम बोला 'चिप्स'

गोरखनाथ मंदिर से जुड़े एक वायरल वीडियो में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नन्हे बच्चे को प्यार से बुलाकर पूछते हैं कि क्या चाहिए। वह योगी के कान में मासूमियत से कहता है, 'चिप्स'। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा उठते हैं। योगी तुरंत अधिकारियों से बच्चे के लिए चिप्स मंगवाने को कहते हैं।

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : प्रदेश में अनुदान पाकर यूरिया बेचने वाली कंपनियां अन्य गैर अनुदानित उर्वरकों की बिक्री नहीं करेंगी। सरकार ने यूरिया के साथ जबरन टैरिंग को लेकर विक्रय प्राधिकार-पत्र में अंकित अन्य गैर अनुदानित उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। कृषि निदेशालय ने सभी जिलों को यह आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, विक्रय प्राधिकार-पत्र में अनुमति के अनुसार नामित कंपनियां यूरिया व डीएपी



का उत्पादन और उनकी बिक्री करती हैं। ये किसानों को अनुदान काटकर उर्वरक बेचती हैं और अनुदान की राशि सीधे सरकार से लेती हैं। इसके अलावा कंपनियां विक्रय प्राधिकार-पत्र के अनुमति में अंकित अन्य गैर अनुदानित उर्वरक जैसे जिंक, सल्फर, सिंगल सुपरफॉस्फेट, पोटाश आदि

स्टॉल पर कंपनियां बेचेंगी जायद के बीज

अमृत विचार, लखनऊ: जायद फसल की तैयारी कृषि विभाग ने अभी से शुरू कर दी है। खेती को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जो स्टॉल लगाकर किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम के दरो पर बीज बचेगी। कृषि विभाग त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम एवं संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत स्टॉल लगावाकर किसानों को बिक्री करेगा। इसके लिए कंपनियां नामित की जाएंगी, जो संकर मक्का एवं बाजरा के बीजों का प्रदर्शन कर बिक्री करेंगी। संकर मक्का एचटी-17169 संसूचित विक्रय दर 46 हजार रुपये विंटल और संकर बाजरा एचटी-4252 संसूचित विक्रय दर 53100 रुपये निर्धारित है। कंपनियों का चयन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। कृषि निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

का उत्पादन करती हैं और इन्हें अनुदानित यूरिया व डीएपी के साथ किसानों को टैरिंग यानी जबरन बेचकर मुनाफा कमाती हैं। इससे

किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सबसे ज्यादा टैरिंग यूरिया में की जाती है। हर जिले में तमाम शिकायतें मिलने पर छापेमारी के

दौरान टैरिंग के मामले पकड़े गए हैं। इधर, रबी फसल में यूरिया की मांग पर किसानों की शिकायतें बढ़ी हैं। इसका संज्ञान लेकर सरकार ने अनुदान पर यूरिया उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के अन्य गैर अनुदानित उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चर्चा यह भी है कि इसी तरह डीएपी बेचने वाली कंपनियों की अन्य उर्वरक और उत्पाद की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाएगी। जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह ने बताया कि जिले में संबंधित अधिकारी और फर्मों को निर्देश जारी कर दिए हैं।



न्यूज ब्रीफ

सड़क हादसे में घायल महिला ने दम तोड़ा

अमृत विचार, गोसाईगंज : थाना क्षेत्र के मलौली गांव ने पास बाइक सवार की टक्कर से घायल महिला ने इलाज के दौरान ट्रामा 2 में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोसाईगंज स्थित हमीरपुर बेगरियामऊ निवासी अवध रानी (50) मंगलवार शाम 5 बजे घर से सामान खरीदने के लिए कस्बा जा रही थी। रास्ते में मलौली के पास वह साधन से उत्तरकर पैदल जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। मृतका के भाई हरिश्चंद्र ने बताया उनके बहनोई गणेश प्रसाद की 3 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में दौ बेटे दो बेटियाँ हैं।

किराया मांगने पर ई-रिक्शा चालक का सिर फोड़ा

अमृत विचार, बख्शी का तालाब : सवारी से किराया मांगने पर नशे में धुत युवक ने साथियों को बुलाकर ई-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। बीकेटी के टिकारी गांव निवासी शिवम राजपूत ने बताया कि वह ई-रिक्शा लेकर गुरुवार शाम करीब साढ़े पांच बजे इटौजा से बख्शी का तालाब की ओर आ रहा था। इसी दौरान इटौजा में महिपाल ई-रिक्शा में बैठ गया। आरोप है कि बेहड़ा चक्की के पास जब उन्होंने महिपाल से किराया मांगा तो उससे कुछ कहासुनी हुई। जिसके बाद शराब के नशे में धुत महिपाल ने फोन कर अन्य लोगों को वहां बुला लिया। शिवम ने बताया कि स्कॉर्पियो से सात-आठ लोग आए और उन्हें लात घुसे और डंडे से पीट दिया। पिटाई से शिवम का सिर फट गया। इस्पेक्टर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

महिला से मारपीट, पति समेत चार पर आरोप

अमृत विचार, काकोरी : थाना क्षेत्र के सेमरामऊ गांव निवासी महिला ने पति और अन्य पर लाठी-डंडों से बेहदमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए काकोरी थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता किसाना ने बताया कि पति छोट्टा, देवर लल्लू, धनी और ललित आए दिन बेवजह गाली-गलौज करते हैं। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और सिर फटने से वह लहलुहान होकर सड़क पर गिर गई। बीच-बचाव करने आए उसके भाई किसनपाल की भी आरोपियों ने पीट दिया, जिससे उसे अंदरूनी चोट आई हैं। इस्पेक्टर सतीश चन्द्र राठौर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

यौन शोषण में प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार

अमृत विचार, पीजीआई : शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को पीजीआई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनिल कुमार मूल रूप से ग्राम बाजीखेड़ा उन्नाव का रहने वाला है। वर्तमान में वह वृंदावन योजना सेक्टर-12बी में रह रहा था। इस्पेक्टर पीजीआई धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता ने 15 जनवरी शाम पर धारणा पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपी ने विवाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नामजद आरोपी अपने घर से बाहर जाने की फिराक में हैं। पुलिस टीम ने आरोपी अनिल कुमार को उसके पते से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

सचिन हत्याकांड

दोस्त की मां के उकसाने पर की थी सचिन की हत्या

संवाददाता, गोसाईगंज

अमृत विचार : नगराम के सचिन तिवारी (25) हत्याकांड में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनय शर्मा उर्फ साहुल मूल रूप से कैट के रजमन बाजार का रहने वाला है। वर्तमान में आशियाना के रजनीखंड में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से खून लगी वूलन इनर बरामद कर ली है। पुलिस वारदात में शामिल कल्पना की तलाश कर रही है। आरोपी ने कबूला कि दोस्त निहाल की मां कल्पना के उकसाने पर सचिन की हत्या की थी।

लखनऊ, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

शिकायतों के निस्तारण में भी बिजली विभाग का वोल्टेज लो

तय समय के बाद भी प्रदेश भर में 13,210 शिकायतें लंबित

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में भी बिजली विभाग को वोल्टेज लो दिख रहा है। टोल फ्री नंबर 1912 पर प्रदेश भर से दर्ज कराई गई 13,210 शिकायतें तय समय बाद भी निस्तारित नहीं की जा सकी हैं। वॉ्टिकल व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को बिजली उपकेंद्रों के बजाय टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 1912 पर दर्ज की गई बड़ी संख्या में शिकायतों का समय सीमा के भीतर निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

वॉ्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद लेसा लखनऊ में 2,470 और केस्को कानपुर में 3,165 शिकायतें अब भी समय सीमा पार होने के बावजूद लंबित हैं। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों की भी है। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद,

● 19 12 पर उपभोक्ताओं ने दर्ज कराई थी शिकायतें



नोएडा, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली समेत कई जिलों में यह व्यवस्था लागू है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा।

आरोप है कि 1912 सेवा पर दक्ष कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण शिकायतों का समय से निस्तारण नहीं हो रहा। पावर कॉरपोरेशन ने एक जनवरी से सुधार के नाम पर लखनऊ और नोएडा से 1912 की सेंट्रलाइज्ड सेवा शुरू की, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं राज्य विद्युत

मियाद बीतने के बाद लंबित शिकायतें

डिस्कॉमवार

- मध्यांचल- 3,618
- पूर्वांचल- 2,213
- पश्चिमांचल- 2,064
- केस्को- 3,165
- दक्षिणांचल : 2,150

उपभोक्ता परिषद ने वॉ्टिकल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पावर कॉरपोरेशन को बिजली उपभोक्ताओं पर शोध के काम को बंद करना चाहिए। परिषद ने आगे कहा कि यह व्यवस्था न तो व्यावहारिक है और न ही उपभोक्ताओं के हित में। यदि यही व्यवस्था जारी रही तो आने वाली गर्मियों में प्रदेश के 3 करोड़ 62 लाख बिजली उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिषद अध्यक्ष अवधेश ने लंबित शिकायतों की जांच कराने की मांग की है।

जन्मदिन पर लिया मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प

जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया बसपा प्रमुख का 70 वां जन्मदिन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : बसपा प्रमुख मायावती के 70वें जन्मदिन पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली ने कार्यकर्ताओं को 2027 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाया और उनकी दीर्घायु की कामना की। विशिष्ट अतिथि सूरज सिंह जाटव ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

बसपा के पदाधिकारी, गुरुवार को गांधी भवन में अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के 70वें जन्मदिन को जनकल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने हुए बोल रहे थे। जिलाध्यक्ष



बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद नेता।

अमृत विचार

शैलेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा और आगामी चुनाव में सक्रिय भागीदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कार्यक्रम में लखनऊ मंडल

के प्रमुख पदाधिकारियों में राकेश कुमार, डॉ. सुशील कुमार मुन्ना, मोजी लाल गौर, गंगाराम गौतम, रामनाथ रावत, हरीश शैलानी, बृजेश चौधरी समेत अन्य जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा मुस्लिम और गोंड समाज

विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने की दी धमकी और घर से निकाला

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : दुबग्गा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालवालों ने विवाहिता को केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी। आरोप है कि दहेज में पांच लाख रुपये और एसयूवी कार की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट की गई और बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। मायके में रह रही पीड़िता की तहरीर पर पति, सास, ससुर और जेट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस्पेक्टर दुबग्गा अभिनव वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता ने बताया कि दिसंबर 2023 में उसकी शादी हरदोई निवासी युवक से हुई थी। शादी में मायकेवालों ने कार सहित करीब 30 लाख रुपये खर्च किए थे, इसके बावजूद ससुराल

प्रेम विवाह कर हड़पे जेवर व रुपये, पेट पर मारी लात, हुआ गर्भपात

■ अमृत विचार : लखनऊ : युवती से प्रेम विवाह करने के बाद युवक ने उसके जेवर और रुपये हड़प लिए। गर्भवती होने पर आरोपी ने पेट पर लात मार दी, जिससे गर्भपात हो गया। पीड़िता ने पति सहित उसके परिजनों पर मारपीट, धमकी और घर से निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्पेक्टर इंदिरानगर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। खुर्रमनगर निवासी प्रतिभा ने बताया कि उसका जानकीपुरम निवासी उत्कर्ष वर्मा से प्रेम प्रसंग था। दोनों ने 27 जून 2024 को चिनहट स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था, जिसका पंजीकरण भी कराया गया। आरोप है कि पीड़िता की मां द्वारा दिए गए करीब पांच लाख रुपये के जेवर और एक लाख रुपये उत्कर्ष ने अपने पास रख लिए। इसके बाद वह शादी को छुपाने का दावा बनाने लगा। गर्भवती होने पर आरोपी ने पेट पर लात मार दी, जिससे गर्भपात हो गया। इसके बाद उसने पीड़िता को पत्नी मानने से इंकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने ससुरालवालों को पूरी जानकारी दी तो उन्होंने भी धमकीया। कहा गया कि उनके इकलौते बेटे को 25 लाख रुपये नकद और होंडा सिटी कार मिल रही है, इतना दहेज देने पर ही उसे बहू बनाया जाएगा। इंकार करने पर आरोपियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर इंदिरानगर पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

वाले संतुष्ट नहीं थे। पति के साथ सास, ससुर और जेट लगातार दहेज की मांग करते हुए मारपीट करते थे। पीड़िता को ससुराल, उससे पांच लाख रुपये, सफारी एसयूवी और एसी की मांग की गई। धमकी दी गई कि मांग पूरी न होने पर केरोसिन

डालकर जिंदा जला दिया जाएगा। आरोप है कि पति शराब पीकर उसके साथ कुकर्म करता था। विरोध करने पर 19 जुलाई 2024 को ससुरालवालों ने उसे पीटकर घर से निकाल दिया, तब से वह मायके में रह रही है।

मुख्य आरोपी निहाल की मां फरार, तलाश में पुलिस की टीमें जुटीं

रेलवे में नौकरी का झांसा देकर युवक से ऐंटे पांच लाख

अमृत विचार, लखनऊ : रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक जालसाज ने युवक से पांच लाख रुपये ऐंठ लिए। आरोपी ने रेलवे में ऊंची पहुंच होने का रौब दिखाकर युवक को अपने जाल में फंसाया। पीड़ित के पिता ने खेत बेचकर रुपये दिए, लेकिन नौ साल बीतने के बाद भी न तो युवक को नौकरी मिली और न ही उसकी रकम वापस की गई। रुपये मांगने पर आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के आदेश पर मदेयगंज पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से बलिया के तिखमपुर स्थित ग्राम परिखरा निवासी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में वह लखनऊ में रहकर स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात खदरा निवासी मोहम्मद दानिश अली सिद्दीकी से हुई। बातचीत के दौरान दानिश ने दावा किया कि उसकी रेलवे में मजबूत पैठ है और वह आसानी से नौकरी लगवा सकता है। इसके लिए उसने पांच लाख रुपये की मांग की। पंकज ने यह बात अपने पिता को बताई थी।

महिला मित्र के घर पहुंची पत्नी को पीटा



बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन कार्यक्रम में उमड़ी भीड़।

के संयोजक भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के लखनऊ

रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर लाखों की चोरी

संवाददाता, बीकेटी/काकोरी

अमृत विचार : थाना बीकेटी से चंद दूरी पर स्थित बालाजी विहार कालोनी में चोरों ने बुधवार देर रात महिला सिपाही के बंद घर को निशाना बनाया। ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवर, नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने महिला सिपाही के रिटायर्ड पुलिसकर्मी पति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं, काकोरी में चोरों ने रेडीमेड गारमेंट्स दुकान का ताला तोड़कर कपड़े और रुपये चोरी कर लिए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

रिटायर्ड पुलिसकर्मी वीरपाल सिंह तोमर उर्फ राहुल ने बताया कि उनकी पत्नी सविता सिंह बलरामपुर जिले में सिपाही हैं। बुधवार दोपहर को वह अपनी पत्नी व बच्चों से मिलने बलरामपुर गए थे। गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे उनके घर के ऊपर निर्माण कार्य देख रहे ठेकेदार उमेश चंद्र मिश्रा ने उन्हें फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी। उसके बाद डायल-112 पर जानकारी दी। जानकारी मिलने पर घर लौटे वीरपाल सिंह भीतर गए तो सारा

● जेवर, रुपये, एलईडी टीवी, बर्तन व कपड़े उठा ले गए चोर



बालाजी विहार कालोनी में चोरी के बाद घर में बिखरा सामान।

सामान अस्त-व्यस्त मिला।

पीड़ित ने बताया कि चोरों ने मां के कमरे में लकड़ी की आलमारी तोड़कर जेवर, 3500 रुपये और एलईडी टीवी उठा लिया। इसके बाद चोरों ने उनके बेडरूम की आलमारी तोड़कर लाखों के जेवर, 50 हजार रुपये, बेड और संदुक तोड़कर कपड़े और बर्तन चोरी किए। फिर बेडरूम में बने तहखाने से शादी के बर्तन चोरी कर चोर भाग निकले। इस्पेक्टर बीकेटी संजय कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के

● काकोरी में गारमेंट्स दुकान का ताला तोड़कर चोरी

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं, काकोरी कस्बा के इमामबाग निवासी विनय कुमार की कटरा बाजार में रेडीमेड कपड़े की दुकान है। विनय ने बताया कि रोजाना की तरह दुकान रात में बंद करके घर चले गए थे। गुरुवार सुबह जब दुकान खोलने गए तो देखा कि दुकान के दोनों शटर टूटे हुए थे। भीतर गए तो हजारों कपड़े व गल्ले में रखे करीब 25 हजार रुपये गायब थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पुलिस पर मारपीट के दौरान युवक की मौत होने का आरोप

कार्यालय संवाददाता, उन्नाव

● परिजनों ने किया हंगामा, सीओ दही के समझाने पर हुए शांत

अमृत विचार : दही थानाक्षेत्र के गांव तारागांव में एक स्थान पर 14 लोग जुआं खेल रहे थे। जिसमें अचानक दरोगा खेड़ा चौकी के सिपाहियों को फड़ की ओर आते देख सभी जुआड़ी भागने लगे। जिसमें गांव निवासी कल्लू पुत्र जुबराती भी भागने लगे। परिजनों के मुताबिक कल्लू भी जुएं के फड़ पर मौजूद था और वह पुलिस को देखकर भागने लगा।

आरोप है कि पुलिस द्वारा कल्लू से मारपीट की गई। जिससे वह हृदयाघात होने से रास्ते में ही गिर पड़ा। परिजन उसे बेसुध अवस्था

में बिछिया अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिछिया अस्पताल से शव लेकर दरोगा खेड़ा पुलिस चौकी पहुंचे और शव रखकर हंगामा करने लगे। इस मौके पर पहुंचे एसओ दही ज्ञानेंद्र सिंह ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हंगामे के दौरान उन्नाव व पुरवा की ओर करीब दो किलोमीटर का लंबा जाम लगा गया। सीओ के दो बच्चों में बेटा सफीक व बेटी महक व पत्नी जैतुन्न का रो-रोकर बुरा हाल है।

सिटी डायरी




विजेता टीम को ट्रॉफी देते अतिथि और आयोजक।



नाले से अतिक्रमण हटाती जेसीबी।

नहर विभाग ने हटवाया अतिक्रमण

अमृत विचार, निगोहां : सिंघाई विभाग की टीम ने गुरुवार को नहर पाटकर बनाया गया रास्ता बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सोशल मीडिया पर नहर पाटने की सूचना वायरल होने पर एई पुनीत कुमार, जेई रमेशचंद्र, सीचपाल, मेट निगोहां पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। किसानों का कहना था कि नहर पाटने से आगे खेतों पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा था। अब अवरोध हटाने से खेतों पर आसानी से पर्याप्त पानी पहुंच जाएगा। जेई ने बताया कि प्रोपर्टी डीलर को दोबारा अनुमति नहर पाटने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।



कंबल के साथ जरूरतमंद और आयोजक।



खिचड़ी भोजन में पूर्व सांसद, विधायक और अन्य लोग।



खिचड़ी भोजन में पूर्व सांसद, विधायक और अन्य लोग।

खिचड़ी भोजन में की मतदाता बनने की अपील

अमृत विचार, काकोरी : दुबग्गा क्षेत्र के इटौली में गुरुवार को तुलसी राम यादव ने मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोग कराया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला शामिल हुए। दोनों नेताओं ने भोज में आए लोगों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने और हर हाल में मतधिकार का प्रयोग करने की अपील की। शाम 5 बजे तक चले भोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने खिचड़ी का आनंद लिया। सतीश कुमार, आर. डी. पाल, संजय रावत, दयाराम यादव, निर्मल यादव, आदर्श मोहन मिश्रा, बबलू तिवारी, मधुर अवस्थी, मोहन, छबन शामिल रहे।

जमालपुर कुर्मियां में बांटे कंबल व जैकेट

अमृत विचार, गोसाईगंज : मकर संक्रांति पर जमालपुर कुर्मियां में राम कीर्तन वर्मा और पवन वर्मा ने सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल व जैकेट का वितरण किया। आनंद वर्मा, दिवाकर वर्मा, राजकमल वर्मा, कमल राज वर्मा, मोनू वर्मा, रीता वर्मा, ऋचा पटेल, अशिका पटेल, अरुणिमा वर्मा, आराध्या वर्मा, अनंविदा वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

न्यूज ब्रीफ

दूध खरीद में हेराफेरी करने का आरोप

अमृत विचार, हरदोई : कस्बे की दूध डेयरीयों पर पशुपालकों से जमकर हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है, ताजा प्रकरण में कस्बे के मोहल्ला बेनीगंज निवासी एक पशुपालक ने डेयरी पर दूध खरीद में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। आरोप है कि डेयरी संचालक द्वारा दूध का सही मूल्य न देकर पशुपालकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित पशुपालक के अनुसार यादव डेयरी पर भैंस का डेढ़ लीटर दूध मात्र 55 रुपये में खरीदा गया, जबकि दूध का फैट एनालाइजर मशीन से निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद डिजिटल पर्ची उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे पशुपालक को फेट और रेंट की वास्तविक जानकारी नहीं मिल सकी।

मामूली विवाद में बाइक में लगाई आग

अमृत विचार, मल्लावां, हरदोई : ग्राम जरेरा बाबट मऊ निवासी श्रवण कुमार ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र बताया कि घरेलू विवाद को लेकर 13 जनवरी को उसके बड़े भाई बबलू ने उसकी बाइक में आग लगा दी, जिससे मोटरसाइकिल पूरी तरह जल गई है। उलाहना देने पर गाली-गलौज कर धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

नानी के घर गई बालिका लापता

अमृत विचार, मल्लावां, हरदोई : ब्लाक के गांव नेवादा महमूदपुर मजरा गोसवा निवासी अनीता देवी ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी पुत्री रुचि रानी अपनी नानी के यहां ग्राम ईश्वरपुर साई गई थीं। जहां से 13 जनवरी को बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है।

मिट्टी निकालने पर गिरने की कगार पर पहुंचा घर

अमृत विचार, हरदोई : ग्राम राधौपुर निवासी संजीत कुमार ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में मकान से करीब 200 मीटर दूर एक मकान बनवाया था। जिसमें दरवाजे व पल्ले नहीं लगे हैं। तथा प्राटर हेतु फंटी जाय है। खाली पड़े मकान के अंदर की मिट्टी अज्ञात व्यक्तिों द्वारा निकाल दी गई है। जिससे मकान गिरने की स्थिति में हो गया है।

अस्पताल दोषी पर कार्रवाई के लिए अब विधिक निर्देश का इंतजार

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग के अफसर मेहरबान हैं। कमेट्री ने जांच के दौरान दो अस्पतालों को दोषी ठहराया था। एक माह बीतने के बाद भी दोनों अस्पतालों पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। सीएमओ की ओर से कार्रवाई की जानी थी। दोनों अस्पतालों का संचालक बेधड़क हो रहा है। इसमें पहला अस्पताल ठाकुरगंज स्थित ऑक्सीजन व दूसरा कुर्सी रोड स्थित आच्वा हॉस्पिटल है। सीएमओ का कहना है दोनों अस्पतालों के संचालन पर रोक लगाने के लिए विधिक दिशा निर्देश लिए जा रहे हैं।

छह माह में दोषी ठहरा पाई कमेट्री : ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज निवासी जियान (3) की ऑक्सीजन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 21 जुलाई को मौत हो गई थी। परिजनो ने इलाज में लापरवाही और वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मामले

कमेट्री ने दोनों अस्पतालों को दोषी ठहराया है। दोनों अस्पतालों पर कार्रवाई से पहले विधिक राय ली जा रही है ताकि कोर्ट में मामला न फंसे। दोनों अस्पतालों पर जल्द ही कार्रवाई होगी।

—डॉ. एनबी सिंह, सीएमओ

की जांच पहले अपर निदेशक लखनऊ मंडल डॉ. जीपी गुप्ता ने किया था। नोटिस जारी करके डॉक्टर को बयान दत्त करने के लिए बुलाया। डॉक्टर बीमारी का बहाना बताकर गायब हो गया था। दो माह के इंतजार के बाद अपर निदेशक ने सीएमओ को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमओ ऑफिस से अस्पताल को कई पत्र जारी हुए थे। अस्पताल का डॉक्टर व संचालक साक्ष्य के संग कमेट्री के सामने पेश नहीं हुए। डॉक्टर व संचालक के जरिये बयान दत्त नहीं कराया। कमेट्री ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिसंबर माह में अस्पताल को दोषी करार दिया था। कमेट्री सदस्यों का कहना है बच्चे का इलाज कुशल विशेषज्ञ के जरिये



एससी-एसटी एवं अन्य वर्गों के लिए 40 पर्सेंटाइल से घटाकर शून्य और माइनस 40 पर्सेंटाइल तय किया गया है। इस फैसले को लेकर चिकित्सा जगत में गहरा असंतोष देखा जा रहा है।

नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स के संस्थापक प्रो. (डॉ.) अनिल नौसरान ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में मेरिट से समझौता देश के स्वास्थ्य तंत्र के लिए घातक

इस वर्ष सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ 50 पर्सेंटाइल से घटाकर 7 पर्सेंटाइल, जबकि ओबीसी, एससी-एसटी एवं अन्य वर्गों के लिए 40 पर्सेंटाइल से घटाकर शून्य और माइनस 40 पर्सेंटाइल तय किया गया है। इस फैसले को लेकर चिकित्सा जगत में गहरा असंतोष देखा जा रहा है।

है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कोई सामान्य शिक्षा का विषय नहीं है। यहां तैयार होने वाले विशेषज्ञ सीधे मानव जीवन से जुड़े होते हैं। इतनी कम कट-ऑफ भविष्य में अयोग्य विशेषज्ञों की पीढ़ी तैयार करने का जोखिम पैदा करती है।

वहीं, केजीएमयू के पूर्व शिक्षक और वर्तमान में हिंद मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. नरसिंह वर्मा का कहना है कि कट-ऑफ मुख्य

और आरक्षित वर्ग को प्रवेश दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षा और मानक निर्धारित किए गए हैं।

बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अतुल अग्रवाल ने कट-ऑफ नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पर्सेंटाइल के बजाय न्यूनतम प्रतिशत तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों में अत्यधिक शुल्क, बांड की शर्तें और प्रमाणपत्र रोकें जाने जैसी समस्याओं के कारण सीटें खाली रहती हैं। ऐसे में मानक गिराने के बजाय सीटें खाली रहने देना बेहतर है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ अधिकांश उन निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलेगा, जहां न तो मरीजों की भीड़ है और न

गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था है।

एरा मेडिकल कॉलेज के कुलपति प्रो. अब्बास अली मेहंदा का कहना है कि कट-ऑफ कम करने से नॉन-क्लीनिकल विषयों की खाली रहने वाली सीटें भरने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पीजी की कुल सीटों में लगभग 30 से 40 प्रतिशत सीटें नॉन-क्लीनिकल विषयों की होती हैं, जो हर साल बड़ी संख्या में खाली रह जाती हैं। प्रो. मेहंदा के अनुसार, इन सीटों के खाली रहने से मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की कमी बनी रहती है। कट-ऑफ घटने से कॉलेजों को आवश्यक फैकल्टी मिल सकेगी और शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होगा।

इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप के सदस्यों की कुंडली खंगाल रही एजेंसियां

रमीज की गिरफ्तारी पर बरामद तीन मोबाइल का डिलीट डेटा रिकवर करने का प्रयास

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: केजीएमयू की जूनियर रेजिडेंट से यौन शोषण, गर्भपात और मतांतरण कांड में जेल जाने वाले डॉक्टर रमीजउद्दीन केस में जांच एजेंसियां भी जुट गयी हैं। आगरा में बने इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से जुड़े लोगों का ब्योरा एजेंसियां जुटा रही है। इसके साथ ही आरोपी डॉ. रमीज को सह देने वाले कई विभागों के डॉक्टर और फैंकेल्टी पुलिस और जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं। जांच एजेंसी अब विभागाध्यक्षों और स्टॉफ से पूछताछ की तैयारी में हैं।

शुरुआती पड़ताल में जानकारी मिली है कि इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से जुड़े कई लोग वर्तमान में अलग-अलग जिलों में सफेदपोश पदों पर तैनात हैं। इन सभी की गतिविधियां रमीज की कार्यप्रणाली से काफी हद तक मेल खाती बताई

● यौन शोषण, गर्भपात और मतांतरण कांड में निकाली जा रही रमीज की एक वर्ष की ट्रैवल हिस्ट्री

जा रही हैं। सूत्रों की माने तो ग्रुप से जुड़े लोग एक साथ करीब चार युवतियों के संपर्क में रहते हैं। रमीज के पकड़े जाने के बाद से ही ग्रुप से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से दूरी बनाए हुए हैं।

वहीं, पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान रमीजुद्दीन के पास से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। हालांकि, इन तीनों मोबाइल फोन का डाटा रमीज ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से मोबाइल का डिलीट डाटा रिकवर कराने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही आरोपी रमीज की बीते एक वर्ष की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। जांच एजेंसियां

आगरा में जूनियर के हॉस्टल में रहकर आरोपी चलाता था नेटवर्क

चौक पुलिस ने आगरा पुलिस से बात की तो पता चला कि डॉक्टर रमीज जब वर्ष 2012 में आगरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा था। उस समय वह अपने हॉस्टल में न रहकर जूनियर के साथ रहता था। मुस्लिम जूनियरों के साथ रहकर पुरा नेटवर्क चलाता था। उन्हें हिंदू महिला डॉक्टरों से प्रेम प्रसंग चलाने के लिए उकसाता था। जूनियर मुस्लिम डॉक्टरों को इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप से उसने जोड़ लिया था। ग्रुप की बैठक कर सारी रणनीति तैयार करते थे। बताया जा रहा है कि यहीं से रमीज दिल्ली विस्फोट की सूत्रधार डॉ. शाहीन के भाई परवेज से सहा में आया था। परवेज उस समय आगरा मेडिकल कॉलेज से ही एमडी कर रहा था।

इंचार्ज से की थी शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई

रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला डॉक्टर ने आयोग की पूछताछ में बड़े खुलासे किए थे। बताया था कि डॉक्टर रमीज की हरकतों और प्रताड़ना के बारे में पैथालॉजी और सीसीयू विभाग के अधिकारियों से उसने शिकायत की थी। इसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीड़िता से यह जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने भी केजीएमयू के विभागाध्यक्षों और इंचार्जों की भूमिका पर सवाल उठाया था।

यह पता लगाने में जुटी हैं कि रमीज पिछले एक साल में कहां गया और किससे मिला? रमीज जहां-जहां

भी रुका या रहा, वहां की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर पूछताछ की जा रही है।

महाराजा सुहेलदेव अष्ट खंभा स्तूप का

होगा सौंदर्यीकरण

अमृत विचार, लखनऊ

प्रदेश सरकार अम्बेडकर नगर में महाराजा सुहेलदेव राजभर वंशीय अष्ट खम्भा स्तूप को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि एक करोड़ रुपए की धनराशि से स्तूप का समेकित पर्यटन विकास किया जाएगा।


पर्यटन मंत्री ने गुरुवार को बताया कि परियोजना के तहत स्तूप के आसपास सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय, सूचना केंद्र, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य न केवल प्राचीन धरोहर की ऐतिहासिक गरिमा बनाए रखना है, बल्कि राजभर समाज की शौर्यगाथा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने 11वीं सदी में सैय्यद आगरा मसूद के आक्रमणों के दौरान क्षेत्र की रक्षा की थी। अष्ट खम्भा स्तूप उस वीर गाथा का प्रतीक है, जिसे अब पर्यटन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाएगी।

जीजा-साली ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी

संवाददाता, हरदोई

अमृत विचार : युवक का अपने छोटे भाई की साली के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम कहानी का रेल की पटरियों पर दर्दनाक अंत हो गया। दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा और रन-थ्रू ट्रेन के आगे कूद पड़े। दोनों की वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बुधवार की देर रात कोतवाली देहात के खदरा रेलवे क्रासिंग पर होना बताया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार की भोर होने से कुछ घंटे पहले कोतवाली देहात को सूचना मिली कि खदरा रेलवे क्रासिंग पर पोल



रीतेश और मुस्कान की फाइल फोटो।

नंबर-1173 के पास अप लाइन पर 30 वर्षीय युवक और 21 वर्षीय युवती के शव पड़े हैं। इसकी सूचना पहले बाघ एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को दी थी, पुलिस ने शवों को कब्जे लेकर शिनाख्त कराई तो युवक के शव की पहचान रीतेश सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी गड़ेउरा थाना बघौली और युवती की पहचान मुस्कान

● अविवाहित युवक का अपने छोटे भाई की साली के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग

पुत्री विपिन निवासी सुमेरपुर थाना मल्लावां के रूप में हुई। दोनों के बीच जीजा-साली का संबंध था। रीतेश सिंह के छोटे भाई साकेत सिंह की शादी मुस्कान की बड़ी बहन के साथ हुई थी। साकेत के मुताबिक रीतेश ने शादी नहीं की थी। वह हरियाणा के जाखुदा बहादुरगढ़ में एक कंपनी में नौकरी करता था। साकेत ने बताया कि रीतेश व मुस्कान के बीच चल रहे प्रेम-प्रसंग के बारे में किसी को नहीं पता था। उसने बताया कि रीतेश हरियाणा में था, मंगलवार को

मुस्कान दवा लेने के लिए घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। उसे खोजा जा रहा था, उधर पता चला कि मुस्कान अकेली हरियाणा पहुंच गई है। रीतेश ने साकेत को फोन पर बताया था कि वह बुधवार को गांव आ रहा है। बुधवार की देर रात वह हरदोई आया और सुभाष नगर में अपने फूफा अनिल सिंह के घर पहुंचा। जहां उसने अपने दोनों मोबाइल, पर्स और बैग रखा, उसके बाद उल्टे पांव लौट गया। शवों की पहचान करने वाले साकेत ने बताया कि रीतेश हरियाणा से यहां साथ आए। लेकिन न जाने ऐसी कौन सी बात हुई कि खौफनाक फैसला कर लिया।

न्यायालय सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने की आत्महत्या

अमृत विचार, हरदोई : न्यायालय सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। इसका पता होते ही एसपी पश्चिमी मार्तण्ड प्रकाश सिंह, सीओ सिटी अंकित मिश्रा पुलिस टीम और फील्ड यूनिट के साथ पहुंच कर जांच-पड़ताल में जुट गए।

बिजनौर ज़िले के खैरुल्लापुर थाना नजीबाबाद निवासी 30 वर्षीय गौरव प्रजापति को 2020 बैच के कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुई थी। उसकी तैनाती न्यायालय सुरक्षा में थी। गौरव प्रजापति कोतवाली देहात के प्रगति

नगर में बालक राम वर्मा के कमरे में किराए पर रहता था। गुरुवार की सुबह दरवाजे पर पहुंचे दूधिए ने आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई, काफी इंतजार के बाद कमरे में झांका गया, वहां अंदर कांस्टेबल गौरव प्रजापति का शव

फंदे पर लटक रहा था। कांस्टेबल के आत्महत्या करने की खबर से पूरा पुलिस महकमा सन्न रह गया। गौरव प्रजापति की दिसंबर में दूसरी शादी हुई थी। पड़ोसी कमलेश कुमार ने बताया कि बुधवार की रात में गौरव मोबाइल पर तेज आवाज में किसी से बात कर रहा था।

युवक पर धर्म छिपाकर शादी का आरोप

अमृत विचार, उन्नाव : धर्म छिपाकर शारीरिक शोषण कर शादी करने का आरोप लगा महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके आरोपी को पुलिस ने पकड़ कोर्ट भेजा है। महिला ने मंगलवार को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि टेंपो चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अजय दीक्षित बता उससे बातचीत शुरू की और प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया। इसके बाद शादी की। कुछ समय बाद अचानक उसकी नजर पड़ी तो वह नमाज पढ़ रहा था। यह देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी करने पर उसकी असली पहचान सफीपुर कस्बे के मोहल्ला मीरबाजार निवासी सलीम के पुत्र आशी के रूप में हुई। उससे पूछा तो उसने दबाव बनाकर उसका भी धर्म परिवर्तन कराया और अचानक गायब हो गया।



हरदोई जिले में पड़ रही भीषण ठंड से राहत पाने को आग तापते ग्रामीण।

अमृत विचार

ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकार्ड, तीन डिग्री तापमान

अमृत विचार, हरदोई : मकर संक्रांति का दिन इस वर्ष का ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 13 साल के बाद इतना कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसके पहले 8 जनवरी 2013 को 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। गुरुवार को भी मकर संक्रांति के

दिन भीषण ठंड से कल्पवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। गंगा के किनारे बसेरा किए गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। छह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवाओं ने तो ठंड और बढ़ा दी। कोहरे के चलते 50 मीटर दृश्यता रही। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि सूर्यदेव के दर्शन होंगे।

ने दर्शन दिए। मौसम वेधशाला के अनुसार गुरुवार का अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। छह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवाओं ने तो ठंड और बढ़ा दी। कोहरे के चलते 50 मीटर दृश्यता रही। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि सूर्यदेव के दर्शन होंगे।

संकट से समृद्धि तक

योगी मॉडल से खेती-किसानी में आई क्रांति, नौ वर्ष में कृषि बनी अर्थव्यवस्था की रीढ़

प्रदेश में किसानों का सशक्तिकरण बना राष्ट्रीय मॉडल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: प्रदेश के किसानों ने जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा किया तो खेती-किसानी की तस्वीर ही बदल गई। वर्ष 2017 से पहले खाद्यान्न संकट, कालाबाजारी, बकाया भुगतान और अव्यवस्था से जूझ रहा प्रदेश आज कृषि उत्पादन और किसान सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है। योगी मॉडल का ही परिणाम है कि देश की कुल कृषि भूमि का मात्र 10 प्रतिशत हिस्सा रखने वाला प्रदेश अब राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में करीब 21 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।



योगी सरकार से पहले जहां कृषि क्षेत्र की विकास दर सिंगल डिजिट में सिमटी रहती थी, वहीं बीते तीन वर्षों में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 14 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। 'खेत से खुशहाली' की यह यात्रा केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध निर्णय और किसान-केंद्रित सोच के जरिए जमीन पर उतरी।

योगी मॉडल की बड़ी उपलब्धियां

- राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का योगदान 21%
- कृषि विकास दर 14% से अधिक
- 36 हजार करोड़ का कर्ज माफ
- पीएम किसान सम्मान निधि में अग्रणी राज्य
- 2.96 लाख करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान

2017 में सत्ता संचालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि किसान सिर्फ वोटबैंक नहीं, बल्कि प्रदेश की

सम्मान, तकनीक और निवेश से बदली खेती

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त तक उत्तर प्रदेश के किसानों को 94,668.58 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। दो करोड़ से अधिक किसान किसान पाठशालाओं के जरिए आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़े। 'लैब टू लैंड' अभियान के तहत 14,170 गांवों में 23.30 लाख किसानों से वैज्ञानिकों का सीधा संवाद हुआ। सहकारिता क्षेत्र में ब्याज दर घटाकर छह प्रतिशत करने, सीड पार्क, टिश्यू कल्चर लैब और बायमैती प्रशिक्षण केंद्र जैसी पहलों ने खेती को तकनीक-समर्थ और बाजार-उन्मुख बनाया।

अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी सोच के तहत 36 हजार करोड़ का ऐतिहासिक कर्ज माफ किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शी फसल खरीद, समयबद्ध भुगतान और सशक्त निगरानी व्यवस्था ने किसानों का भरोसा लौटाया।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार-नहरों के पुनर्जीवन, नलकूपों की संख्या में वृद्धि और रियायती/मुफ्त सिंचाई योजनाओं ने उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई दी। सूखा और जल संकट झेलने वाले क्षेत्रों में भी खेती फिर से सांस लेने लगी।

गन्ने ने भरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऊर्जा

योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 प्रति किंटल की बढ़ोतरी की गई। अग्रेती प्रजाति का मूल्य 400 और सामान्य प्रजाति का 390 प्रति किंटल तय हुआ। इससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। 2017 से अब तक 2.96 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया जा चुका है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूँकी है।

जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल

संवाददाता, बिलग्राम, हरदोई

अमृत विचार : थाना क्षेत्र के ग्राम पीनौडी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद की गुरुवार को हिंसक हो गया। विवाद के दौरान दोनों ओर से लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की 5 माह की गर्भवती महिला समेत दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया।

पीड़ित पक्ष के अनुसार पूजा देवी पत्नी नीरज, जो लगभग पांच माह की गर्भवती हैं, के पेट पर लाठी से वार किया गया, जिससे उनकी

हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा रीता पुत्री राजेंद्र (18 वर्ष), अर्चना पुत्री राजेश (17 वर्ष), रामश्री पत्नी राजेंद्र (45 वर्ष) तथा शशि पत्नी विनोद कुमार को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष से निशा और विमला को भी मारपीट में चोटें आई हैं। सभी घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी को लेकर विवाद चला आ रहा था, जिसे लेकर पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी थी।

न्यूज़ ब्रीफ

निर्माणाधीन मकान में तोड़फोड़ व मारपीट

बाराबंकी, अमृत विचार : कोतवाली नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान को लेकर विवाद हो गया। पड़ोसियों ने अन्य लोगों के साथ बन रही दीवार गिरा दी, महिलाओं से अभद्रता करते हुए मारपीट की। कुलदीप मिश्रा निवासी मंड्रापुरवा पोस्ट शुगरमिल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर संगठन कार्यालय बनाने के लिए एक हॉल का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि 9 जनवरी की सुबह घर के पीछे रहने वाले चंद्रेश यादव उर्फ बच्चा, लालजी यादव, प्रेम सिंह यादव पुत्र अज्ञात, शिव सिंह यादव सहित 5-6 अन्य लोग पहुंचे और पहले रोशनदान बंद कराया, इसके बाद निर्माणाधीन दीवार तोड़कर गिरा दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और ईंट से प्रहार करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद पीड़ित की पत्नी के साथ भी अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है।

18 सागौन के पेड़ काटे एक पिकअप जब्त

रामसनेहीघाट, बाराबंकी, अमृत विचार : नारायणपुर में सागौन के पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है। वन विभाग को 13 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि नारायणपुर में सागौन के वृक्ष काटे जा रहे हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन टीम को आता देख आरोपी फरार हो गए। जांच के दौरान मौके से कुल 18 सागौन के पेड़ कटे हुए पाए गए। इसके अलावा मौके से एक पिकअप बरामद की गई, जिसमें लगभग 8 विंटेल्ड सागौन की लकड़ी लकड़ी लदी थी। शेष कटी हुई लकड़ी आरोपी पहले ही ले जा चुके थे। आसपास पड़ोसियों में पता चला कि यह कटान कथित तौर पर केदार रंजन उर्फ अहमद निवासी ग्राम नरयानपुर द्वारा कराई गई है। वन विभाग की ओर से मामले में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी गई है।

उधार न देने पर पीटा दुकान में तोड़फोड़

बाराबंकी : अमृत विचार : कोतवाली सतरिक्ष क्षेत्र में उधार सामान न देने पर दवांगों ने महिला दुकानदार की नाबालिग बेटी के साथ मारपीट करने के साथ ही दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेलियागढ़ पोस्ट शरीकाबाद निवासी सोनी निषाद अपने घर के दरवाजे पर परचून की दुकान चलाती हैं। 14 जनवरी की शाम वह किनारे का सामान लेने तीरागांव गई थीं। इसी दौरान दुकान पर उनकी 10 वर्षीया बेटी शिवानी मौजूद थी। आरोप है कि उसी समय गांव के ही निवासी कुलदीप कुमार नशे की हालत में दुकान पर उधार सामान लेने पहुंचा। शिवानी द्वारा उधार देने से इनकार करने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने बेटी को लात-धूसों से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। साथ ही दुकान में रखा सामान भी फेंक कर नुकसान पहुंचाया। पीड़िता ने बताया कि मारपीट के दौरान आरोपी के पिता रामसनेही और भाई मनीष भी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी।

आग से गोदाम में रखा सामान जलकर राख

हैदरगढ़, बाराबंकी, अमृत विचार : नगर पंचायत क्षेत्र में सुबेहा टोपे स्टैंड के निकट स्थित एक पान मखाने के गोदाम में गुरुवार को आग लग गई। जिससे हजारों रुपय का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों द्वारा कई मशकत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार नगर, पंचायत हैदरगढ़ निवासी बैजनाथ चौरसिया की पान मसाले की दुकान एवं गोदाम सुबेहा मार्ग पर स्थित है। गुरुवार शाम गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई।

दिखाया दम

पहले दिन अयोध्या की खिलाड़ियों का रहा दबदबा

अयोध्या कार्यालय

अमृत विचार : प्रदेश खेल निदेशालय के तत्वावधान में दो दिवसीय प्रदेशीय समन्वय सीनियर महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुरुवार को डाभासेमर के डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुल में शुरू हुई। पहले दिन अयोध्या की खिलाड़ियों का दबदबा रहा। अयोध्या की खुशी ने 400 मीटर व 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।

मुख्य अतिथि महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी अन्तिमस सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं,

अयोध्या कार्यालय

अमृत विचार : मकर संक्रांति पर्व पर सरयू में लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मंदिरों में दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं के लिए नागरिक सुविधाओं के साथ प्रशासनिक और पुलिस की तैनाती की गई थी।

धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सरयू में स्नान, दान और पूजन से सभी पापों का क्षय होजा ता है। भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ मकर स्नान के लिए अयोध्या पहुंची थी। भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तरायण होने के इस महत्वपूर्ण पर्व पर अयोध्या आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम दिखा। अनुमान के मुताबिक लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में स्नान किया। श्रद्धालुओं की भीड़ अल सुबह से ही अयोध्या में जय सियाराम और

अधिवक्ताओं ने फिर घेरा टोल प्लाजा शांतिमंग में आरोपियों को जेल भेजे जाने से भड़के, टोलकर्मियों द्वारा वकील से मारपीट का मामला

फूटा गुस्सा

● खोल दिए बूम बैरियर, बिना टोल दिये गुजरे दर्जनों वाहन

हैदरगढ़, बाराबंकी

अमृत विचार : गुरुवार दिन में कई मांगों पर आश्वासन के बाद माने वकील शाम को फिर टोल प्लाजा पर जुटे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दर्ज मुकदमे में अन्य धाराओं के बजाय शांतिभंग में आरोपियों को जेल भेजे जाने से भड़के वकील कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। देर शाम वमी धाराओं में भी कार्रवाई के आश्वासन पर वकील शांत हुए।

बारा टोल प्लाजा पर बुधवार दोपहर टोल कर्मियों ने प्रयागराज के एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा और बड़ी संख्या में वकील कोतवाली में जुट गए। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने व तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वकील शांत हुए। इसी क्रम में गुरुवार दोपहर अधिवक्ताओं का आक्रोश देखने को

परीक्षा देकर लौट रहे भाई बहन को ट्रक ने रौंदा, मौत

संवाददाता डलमऊ, रायबरेली

अमृत विचार : परास्नातक प्रथम पाली में परीक्षा देकर मोटरसाइकिल से घर वापस जा रहे भाई-बहन को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। डलमऊ पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। डलमऊ पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे सीओ और कोतवाल को शांत कराने में पसीना छूट गया। कार्रवाई का आश्वासन देकर किसी तरह जाम को हटवाया गया।

डलमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरे कुंजन मजरे चांदपुर लूक ग्राम



मकर संक्रांति पर्व पर सरयू में आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु।

जै श्रीराम के साथ हर-हर महादेव के जयकारे के साथ सड़क पर दिखने लगी थी। ब्रह्म मुहूर्त से सरयू के घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या के साथ आसपास के जिलों अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती के साथ देश और प्रदेश के बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे।



वकीलों से वार्ता करके एएसपी।

● अमृत विचार

मिला। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा के सभी बैरियर खोल दिए। हंगामे के बीच टोल कर्मों फरार हो गए, नतीजा यह कि स्टॉफ के अभाव में लखनऊ-सुलतानपुर हाईवे पर वाहनों का आवागमन बिना टोल के जारी रहा। कोतवाली पुलिस के साथ ही कई थानों की फोर्स, पीएस के जवान मौके पर पहुंच गए। एसडीएम राजेश विश्वकर्मा और कोतवाल ने समझाने-बुझाने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद एएसपी उन्नी उत्तरीका सिंघ ने बताया कि दर्ज मुकदमे के सभी आरोपियों को जेल

हो गई, वहीं स्थानीय वकीलों के लिए टोल फ्री करने के दिलासे पर वकील चले गए। अभी शांति छाई ही थी कि बार कौंसिल के सदस्य अखिलेश अवस्थी, कुलदीप नारायन मिश्र स्थानीय बार पदाधिकारियों के साथ फिर टोल प्लाजा पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बार महामंत्री सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि पुलिस ने कई धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया लेकिन केवल शांतिभंग की धारा में चालान किया गया। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि दर्ज मुकदमे के सभी आरोपियों को जेल

दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत

बाराबंकी, अमृत विचार : अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। जैदपुर के नानपजान में गुरुवार को दूध डेरी के टैंकर फहद की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार होने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया।

रामनगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल किशनपुर निवासी पिंटू उर्फ रामप्रताप (48) की लखनऊ के लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुर्सी के टिकैतगंज स्थित लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में बबुरपुर के बुढ़ाना गांव निवासी मिनहॉज (20) गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।



टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते अधिवक्ता।

● अमृत विचार

जूनियर अधिवक्ता पर हमला, दो हिरासत में बाराबंकी, अमृत विचार : पल्हरी चौराहा पर गुरुवार को एक जूनियर अधिवक्ता से ई-रिक्शा व ऑटो चालकों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। घायल अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ ने कोतवाली नगर में तहरीर दी है। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ कहरी जाते समय पल्हरी चौराहा पर एक ऑटो चालक से साइड देने को कह रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और आरोप है कि कुछ ही देर में मौके पर मौजूद अन्य ऑटो चालक भी एकत्र हो गए। इसके बाद अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनकी सोने की चेन और अंगुठी छीने जाने का भी आरोप है। घायल अधिवक्ता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। जानकारी मिलने पर बाराबंकी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ता कोतवाली पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सीओ संजम कुमार ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

भेज दिया गया है। संबंधित एजेंसी पर

भी कार्रवाई के लिए एनएचआई को

पत्राचार किया गया है। शांति व्यवस्था बहाल है।

गंगा में हर साल डूबता है मंदिर, पर शिवलिंग अडिग

वाराणसी के रत्नेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य बरकरार

वाराणसी, अमृत विचार : गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच हर साल एक ऐसा दृश्य सामने आता है, जो श्रद्धालुओं को आज भी चकित करता है। अस्सी घाट के पास स्थित प्राचीन रत्नेश्वर महादेव मंदिर बारिश और बाढ़ के मौसम में पूरा जलमग्न हो जाता है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घाट, सीढ़ियाँ और गलियाँ सब पानी में डूब जाते हैं, लेकिन शिवलिंग उसी स्थिरता के साथ खड़ा रहता है, जैसे समय उसके सामने ठहर गया हो।

मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में हुआ और इसका संबंध माता पार्वती द्वारा रत्नों से बनाए गए शिवलिंग से जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे रत्नेश्वर



वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर।

● अमृत विचार

महादेव के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा जब उफान पर होती है, तब मंदिर का पूरा ढांचा पानी में समा जाता है, लेकिन जल कभी भी शिवलिंग के शीर्ष से अधिक नहीं चढ़ता। कई लोग इसे आस्था की शक्ति बताते हुए कहते हैं कि गंगा यहां मर्यादा में बहती है। मौसम चाहे जितना भी खराब हो, मंदिर पूरी तरह डूबा हो या पानी का

19 मार्च के समारोह की तैयारी में जुटा ट्रस्ट

अयोध्या, अमृत विचार : नव संवत्सर के शुभारंभ अवसर चैत्र प्रतिपदा और नवरात्रि के पहले दिन पर राम मंदिर में 19 मार्च को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में वाराणसी की खुशी प्रथम, वाराणसी की वंदना द्वितीय व अलीगढ़ की अंजली तृतीय रही। ट्रिपल जंप में वाराणसी की जगतनंदनी प्रथम, मेरठ की चंचल द्वितीय व प्रयागराज की रितु तृतीय रहीं। जैबलिन स्पर्ध में अयोध्या की दीपांशी मौर्या प्रथम, अलीगढ़ की नीतू द्वितीय व बस्ती की काजल तृतीय रही। इस मौके पर क्रीडाधिकारी रायबरेली धीरेन्द्र कुमार पुरुषोत्तम, उप क्रीडाधिकारी विवेक कुमार, शकील अहमद अन्सारी, मुकेश कुमार सिंह आदि थे।

रामलला को लगा तिलकुट और खिचड़ी का भोग

अयोध्या कार्यालय।

अमृत विचार : राम मंदिर में गुरुवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर में विराजमान रामलला और राजाराम के दरबार में विशेष श्रृंगार पूजन किया गया। पतंग

भी दी गई, दोपहर में खिचड़ी का भोग लगाया गया। राम खिचड़ी प्रसाद को भक्तों में भी वितरित किया गया। राममंदिर के सुबह 6 बजे से ही पट खुल गये। रामलला का सरयू के जल और औषधि जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद पुजारियों ने पीला वस्त्र धारण कराने के साथ दिव्य श्रृंगार किया गया। आरती का भी भव्य आयोजन हुआ जिसमें दर्शन करने के लिए पहुंचे आम श्रद्धालु भी शामिल हुए। इस मौके भूतल पर बाल स्वरूप रामलला व प्रथम तल पर विराजमान भगवान श्री राम और माता सीता को भी पुजारी ने पतंग अर्पित की। दोपहर में राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला, राजाराम और अन्य सभी देवी देवताओं व ऋषि-मुनियों को भी तिलकुट, खिचड़ी, दही, पापड़, धी, अचार का भोग लगाया गया। जहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर परिसर के निकास द्वार स्थित सीता रसोई में राम खिचड़ी प्रसाद की वितरित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य व व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव ने बताया कि आज रामलला का विशेष भोग और श्रृंगार का आयोजन संपन्न हुआ है। बालक राम और राम दरबार में भगवान को पतंग को भी अर्पित की गई है।



रामदरबार में रामलला को भेंट की गई पतंग।

मंदिर निर्माण के बाद अब सबसे आगे हिंदू अभियान शुरू : तोगड़िया



प्रवीण तोगड़िया का स्वागत करते कार्यकर्ता।

● अमृत विचार

फतेहपुर, बाराबंकी, अमृत विचार : अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने गुरुवार को नगर में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के बाद अब ‘सबसे आगे हिंदू’ नाम से नई राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने गांवों और मोहल्लों में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करने का संकल्प दिलाया। डॉ. तोगड़िया ने राम नाम को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए कहा कि हर हिंदू घर को सुखी, समृद्ध, सुरक्षित, रोजगारयुक्त, रोगमुक्त और महिला-सुरक्षित ओमश्री परिवार

बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब-जब हिंदू घटा है, वह कटा और लूटा गया है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना जरूरी है। डॉ. तोगड़िया ने हिंदू हेल्पलाइन के साथ राष्ट्रीय किसान परिषद, छात्र परिषद और महिला परिषद ओजिस्वनी से जुड़ने का आह्वान किया। बजरंग दल के जिला कार्य अध्यक्ष जयशंकर चट्टान सिंह और जिला महामंत्री शुभम सोनी व कार्यकर्ताओं ने डॉ. तोगड़िया को कृपाण भेंट की। इस मौके पर सभासद संतोष मिश्रा दीपू, किसान नेता दहन सिंह, रामनाथ सोनी, संजय सोनी, राज किशोरी यादव, घनीराम गुप्ता, रमेश शर्मा, सत्यम आदि मौजूद थे।

काशी विश्वनाथ धाम में लगा विशेष भोग

वाराणसी, अमृत विचार : मकर संक्रांति पर गुरुवार को काशी विश्वनाथ धाम में भवित और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस शुभ दिन पर बाबा विश्वनाथ को पारंपरिक सात्विक भोग अर्पित किया गया, जिसमें खिचड़ी, अचार, चिवड़ा, मूंगफली और पढ़ी शामिल रही। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर और “हर-हर महादेव” के जयकारे गूँजते रहे। भक्तों ने विधि-विधान से दर्शन कर बाबा से सुख-समृद्धि और मंगल जीवन की कामना की।

भोषण बाढ़ आई थी, तब भी यह मंदिर पूरी तरह डूब गया था। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, लेकिन पानी उतरने के बाद रत्नेश्वर महादेव मंदिर ज्यों का त्यों मिला। न दीवारें टूटीं, न शिवलिंग में कोई बदलाव आया।

होमगार्ड को धक्का देकर भाग निकला चोर

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। गुजैनी थाने में चोरी के मामले में गिरफ्तार शातिर होमगार्ड को धक्का देकर भाग गया। होमगार्ड उससे हवालात से शौचालय ले जा रहा था। फरार होने से थाने में हड़कंप मच गया। महिला सिपाही को निर्लिखित कर दिया गया है।

गोपालपुरम सोसाइटी के रहने वाले गौरव वर्मा की जरीली फेस-टू स्थित बालाजी ज्वैलर्स में 14 दिसंबर को गोरव वर्मा की जरीली फेस-टू स्थित बालाजी ज्वैलर्स में 14 दिसंबर की देर चोरी हुई थी। तीन नकाबपोश चोरों ने रात शटर तोड़कर तीन किलो चांदी के जेवर समेट ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज में 36 मिनट में यह वारदात हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने 20 दिसंबर को गुजैनी

गांव निवासी विशाल गुप्ता उर्फ मन्नु बिहारी, मायापुरम कच्ची बस्ती का करन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। चोरी में शामिल अजय उर्फ बंटा, विशाल व कल्लू को चोरी के पांच दिन बाद 19 दिसंबर को चकेरी पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि बरां के शिवाजी पुलिसा निवासी कल्लू उर्फ विशाल चोरी के बाद फरार चल रहा था। गुरुवार को पुलिस कल्लू को गिरफ्तार कर थाने लाई। पृष्ठछाछ के बाद जेल भेजने की तैयारी थी, इसी बीच होमगार्ड राजकुमार उसे हवालात से निकालकर बाथरूम के लिए ले जा रहा था। तभी शातिर कल्लू ने अचानक होमगार्ड को धक्का दिया और रफूचक्कर हो गया।

न्यूज ब्रीफ

मरम्मत के नाम पर लाखों का घोटाला

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार । नगर पालिका परिषद बांसी में करोड़ों रुपये की लागत से वर्षों पहले बने माघ मेला स्थित बुजभूषण मंरेज हाल की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये खर्च कर दिये गये, लेकिन हालात आज भी खण्डहर जैसे बने हुए हैं। नगर पालिका परिषद बांसी द्वारा कराई गई तथाकथित मरम्मत केवल कामजों में हुई है। बुजभूषण मंरेज हाल की स्थिति आज भी बदतर बनी हुई है। दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें, टूटी टाइलें, घंसा हुआ फर्श व चारों तरफ गन्दगी का अम्बार एवं झांक रहे छत से लोहे के सिरिए और सीमेंट झड़कर नीचे गिर रहा है। वहीं लाखों की मरम्मत के बावजूद यह भवन किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। सुओं के मुताबिक बुजभूषण मंरेज हाल के निर्माण और मरम्मत के नाम पर टेण्डर प्रक्रिया के जरिये लगभग 22 लाख रुपये की बन्दरबांट की गई, बांसी की जनता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है।

स्कार्पियो से अंग्रेजी

शराब बरामद

कुशीनगर, अमृत विचार : थाना विशुनपुरा पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान स्कार्पियो वाहन से 181 अदर अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया। अभियुक्त की पहचान विक्की प्रसाद निवासी लालगंज मसुदन एकडी थाना लालगंज जिला बैसाली, बिहार के रूप में हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना विशुनपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय किसान यूनियन ने साँपा झापन

शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर अमृत विचार । भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) के जिला उपाध्यक्ष श्रवण कुमार ने 07 सूत्रीय मांगों को लेकर शोहरतगढ़ तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में असहाय एवं गरीब परिवार हेतु 100 कम्पल उपलब्ध कराना, तहसील कार्यालय द्वारा खतौनी 15 की जगह 20 रुपये प्रति खेतौनी का दाम अंकुश लगाने सहित अन्य मांगें शामिल हैं।

18 जनवरी को संतरागाछी जं. से बनारस के लिए चलेगी उद्घाटन विशेष अमृत भारत ट्रेन

गोरखपुर, अमृत विचार। रेलवे प्रशासन द्वारा 22588/22587 बनारस-सियालदह-बनारस अमृत भारत त्रैसाप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारम्भ संतरागाछी से बनारस के लिए 18 जनवरी को 03।14। संतरागाछी-बनारस उद्घाटन विशेष अमृत भारत एक्सप्रेस चलाकर किया जायेगा। 22588/22587 बनारस-सियालदह- बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचलन बनारस से 23 जनवरी से प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को तथा सियालदह से 24 जनवरी से प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को किया जायेगा। ये गैर-वार्तानुकूलित श्रेणी की प्रीमियम ट्रेन हैं। बनारस के लिए यह पहली अमृत भारत गाड़ी है। यह जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी।

कांग्रेसियों ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर साँपा झापन

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार । वाराणसी में एनएसयूआई के शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जोशीरी के साथ पुलिस द्वारा किये गये अमानवीय व्यवहार, लाक-अप में बन्द किये जाने तथा कार्यकर्ताओं के परिजनो महिलाओं व बच्चों को परेशान किये जाने के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष अजित सिंह अन्तु के नेतृत्व में खिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर राखपाल उत्तर प्रदेश को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया।

बढ़ाया मान

जूनियर तीरंदाज संध्या को 2 व्यक्तिगत और 1 मिवरुड में स्वर्ण पदक, अनिल ने भी मारी बाजी

तीरंदाजों ने कोलकाता में जीते कई स्वर्ण पदक

संवाददाता, संतकबीरनगर

अमृत विचार। संतकबीरनगर जिले के तीरंदाजो ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जनपद का नाम रोशन किया है। तीरंदाजी संघ संतकबीरनगर के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया इंटर SAI आंचरी चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए।

तीरंदाजी संघ संतकबीरनगर के अध्यक्ष डॉ. राकेश मिश्रा ने बताया कि हैप्पर बाजार क्षेत्र के धौरहरा ग्राम निवासी भाई-



कोलकाता में ऑल इंडिया इंटर एसआई आंचरी चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले संतकबीरनगर के तीरंदाज खिलाड़ी।

बहन, जो संघ के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं, लगातार विभिन्न प्रतियोगिताओं में जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतियोगिता में बालिका जूनियर

जिला संवाददाता, संतकबीरनगर

अमृत विचार। मकर संक्रांति का पर्व जनपद में गुरुवार को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर दान-पुण्य किया। सुबह तड़के से ही घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं, मगहर में श्रद्धालुओं ने आमी नदी में स्नान के बाद सद्गुरु संत कबीर की समाधि व मजार पर आस्था की खिचड़ी चढ़ाई।

मंहदावल क्षेत्र के राप्ती नदी के बड़या-ठाटर घाट और करमैनी घाट तथा धनघटा क्षेत्र के सरयू नदी के बिड़हरघाट, बैजूधाम घाट सहित अन्य घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मगहर में श्रद्धालुओं ने आमी नदी में स्नान के बाद सद्गुरु संत कबीर की समाधि व मजार पर आस्था की खिचड़ी चढ़ाई।

सैनिकों के कारण ही देश सुरक्षित: शशांक

संवाददाता कुशीनगर

अमृत विचार: सेना दिवस पर गुरुवार को नयी दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा सैनिक अभिनेदन समारोह का आयोजन बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। समारोह का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद सैनिकों तथा वर्ष 2025 में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों के प्रति समाज की कृतज्ञता व्यक्त करना रहा।

कार्यक्रम में 11 शहीद सैनिकों के परिजनों एवं 59 सेवानिवृत्त सैनिकों सहित कुल 70 सैनिकों एवं सैनिक परिजनों को सम्मानित किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। समारोह के मुख्य अतिथि देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य, अनुशासन और बलिदान राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। सैनिकों के कारण ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और नागरिक निश्चित होकर जीवन यापन कर पा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग



मगहर के कबीर चौरा पर मेला का उद्घाटन करते महंत विचार दास, चेयरमैन अनवरी बेगम।

कबीर चौरा परिसर में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात सहित देश के विभिन्न प्रांतों से आए कबीर भक्तों व साधुओं ने दर्शन-पूजन कर मन्तते मांगीं। श्रद्धालुओं ने सत्संग में भाग लिया और विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मेले में लगी दुकानों से खरीदारी और श्रुलों का आनंद भी लिया गया। खिचड़ी पर्व के अवसर

पर महंत विचार दास ने कहा कि सद्गुरु कबीर ने ऊंच-नीच, भेदभाव और धार्मिक विभेद को मिटाकर मानवता का संदेश दिया। कबीर चौरा परिसर में संतों द्वारा कबीर भजनों की प्रस्तुति दी गई। भजन गायक डॉ. हरिशरण शास्त्री और ननक साहेब बलरामपुर के भजनों पर श्रद्धालु भक्तिरस में डूबे रहे। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मगहर के कबीर चौरा में परंपरागत खिचड़ी मेले का उद्घाटन कबीर मठ के महंत विचार दास और नगर चेयरमैन अनवरी बेगम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। चेयरमैन ने श्रद्धालुओं को किसी प्रकार



समारोह में किए गए शहीदों के परिजन व पूर्व सैन्यकर्मी।

अमृत विचार

●सेना दिवस पर नयी दिशा की ओर से बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में हुआ आयोजन

कमांडर आलोक कक्सेना ने कहा कि समाज द्वारा सैनिकों और शहीद परिजनों का सम्मान, सेना के मनोबल को और अधिक सुदृढ़ करता है तथा यह भावी पीढ़ी को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. विनोद मोहन मिश्र ने कहा कि सैनिकों का सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है और शैक्षणिक संस्थानों की इसमें महत्वपूर्ण

भूमिका है। कार्यक्रम को पूर्व प्राचार्य डॉ. दयाशंकर तिवारी, प्रो. अमृतांशु शुक्ल, मेजर डॉ. महेश बर्नवाल, लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश मिश्र ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार मजीबुल्लाह राही ने किया। स्वागत भाषण एनसीसी के सीटीओ डॉ. सौरभ द्विवेदी ने दिया। प्रस्तावना नयी दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान के सचिव डॉ. हरिओम मिश्र व आभार संस्था अध्यक्ष प्रो. सीमा त्रिपाठी द्वारा जताया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी, एनसीसी केडेट्स सहित अन्य उपस्थित रहे।



राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आयोजित समारोह में मौजूद अधिकारी व कर्मचारी।

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन

नई दिल्ली, अमृत विचार। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार रमा ने चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आयोजित समारोह में 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार रेल नेटवर्क के सुचारु संचालन और विकास के प्रति रेल कर्मचारियों के अनुरूपणीय समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। समारोह के दौरान, महाप्रबंधक ने उत्तर रेलवे के 94 अधिकारियों /कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अलावा, उत्तर रेलवे के उन विभिन्न विभागों और मंडलों को 30 दशता शील्ड प्रदान की गई, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न परिचालन मानकों में असाधारण प्रदर्शन किया है।

तमकुहीराज को हराकर निलेश कसया सेमीफाइनल में



क्रिकेटर्स से हाथ मिलाते मुख्य अतिथि यशवंत सिंह।

अमृत विचार

विकेट के नुकसान पर 183 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। गेंदों पर 62 रन की तूफानी पारी टीम की ओर से राहुल गौड़ ने

बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 33 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। गेंदों पर 62 रन की तूफानी पारी टीम की ओर से राहुल गौड़ ने

तमकुहीराज की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई व निर्धारित ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना सकी। मैंन ऑफ द मैच का पुरस्कार राहुल गौड़ को दिया गया। इससे पूर्व मैच के मुख्य अतिथि इंजीनियर यशवंत सिंह रहे। प्रतियोगिता के दूसरे मैच में परफेक्ट ऐकेडमी साखोपाज ने गोपाल गंज की टीम को हराया। परफेक्ट ऐकेडमी की टीम ने 20 ओवर में 229 रन बनाया। जबाब में उतरी गोपालगंज की टीम ने130 रन बनाकर आउट हो गई।

नहर में बहती मिलीं दवाएं, जांच शुरु

जालौन,एजेंसी। जालौन जिले के कदौरा कस्बे में बृहस्पतिवार को एक नहर में भारी मात्रा में दवाएं बहती पाई गईं, जिसके बाद जांच शुरु कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र भिटौरिया ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के कदौरा कस्बे में एक छोटी नहर में बड़ी मात्रा में दवाएं बहती हुई मिलीं। कुछ दवाएं नहर के किनारे भी पड़ी थीं। इसे देखकर ग्रामीणों ने फोन पर सूचना दी। भिटौरिया ने बताया कि सूचना पाकर तत्काल टीम मौके पर भेजी गई, जिसने वहां से दवाएं एकत्र कीं। दवाओं के लेबल पर उर्दू बैच नंबर के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि ये दवाएं किस स्वास्थ्य केंद्र को आवंटित की गई थीं व किसने फेंका।

आस्था व धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति उत्सव

कुशीनगर, अमृत विचार : कुशीनगर में मकरसंक्रांति का पर्व धार्मिक अनुष्ठान और स्नान के साथ धूमधाम से मनाया गया।तुर्कपट्टी स्थित ऐतिहासिक गुप्तकालीन सूर्य मंदिर में पर्व श्रद्धार्पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने खिचड़ी रूपी प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही, भिक्षुकों और असहायों को अन्न, वस्त्र और द्रव्य का दान भी किया गया। मंदिर परिसर में आयोजित इस सहभोज में स्थानीय ग्रामसभा महुअवं बुजुर्ग के साथ-साथ आसपास के गांवों से आए सैकड़ों बच्चों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। हाटा क्षेत्र में मंदिर में पूजन- अर्चन के बाद प्रार्थना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। एक ओर जहां धार्मिक अनुष्ठान हुए, वहीं दूसरी ओर हाटा और आसपास के इलाकों में बच्चों व युवाओं में पतंगबाजी का होड़ देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में रंग-बिरंगी पतंगें लहराती नजर आईं। श्रद्धालुओं ने गोरखपुर स्थित बाबा गोरखनाथ मंदिर में पहुंच खिचड़ी चढ़ाई व मेले का आनंद लिया।

की असुविधा न होने देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संत, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे।

बसपाइयों ने मायावती का मनाया जन्मदिवस



संतकबीरनगर, अमृत विचार। बसपा सुप्रीमो एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती का जन्मदिन गुरुवार को खलीलाबाद ब्लॉक के भुजौनी गांव में उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने गरीबों और असहाय लोगों में मिष्ठान और केक का वितरण कर उनके दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम के दौरान युवा समाजसेवी प्रशांत तिवारी उर्फ रानू बाबा ने सैकड़ों ग्रामीणों को साल भेंट कर सम्मानित किया तथा मिठाई खिलाकर जन्मदिवस की खुशियां साझा कीं। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। इस मौके पर प्रशांत तिवारी ने कहा कि बहन मायावती ने समाज के अंतिम पवित्र में खड़े लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए जो संघर्ष किया है, वह अविस्मरणीय है। उनके नेतृत्व और नीतियों से वंचित वर्ग को नई दिशा और पहचान मिली है। ग्रामीणों ने भी बहन मायावती के सामाजिक न्याय और समता पर आधारित विचारों को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एकता, भाईचारा और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया।



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रितिक कुमार पुत्र राजू ग्राम हुल्लापुर पो. सतवां खड़ा, परगना व विकास खंड वररौनी, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली का निवासी हूं। मेरे आधार कार्ड समेत सभी वस्तावजों में रितिक कुमार पुत्र राजू अंकित है। जबकि हाईस्कूल अंकपत्र में गलत नाम रितिक पुत्र राजू है। सही नाम रितिक कुमार पुत्र राजू है, रितिक कुमार और रितिक दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे भारत सरकार की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर /कार्य, वास्ते मुख्य कारखाना प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिये आनलाईन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
क्रम सं0 1-:- ई-निविदा सूचना सं0 एवं निविदा कार्य का विवरण: टेण्डर नं- "46-जी के पी-एमडब्ल्यू.एस-2025-26"- "एमसी ऑफ कील माउटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑफ वन्दे भारत कोचेज (एम/एस नॉर्मे ब्रेमसे मैक) इन मैकेनिकल वर्कशॉप, गोरखपुर फॉर रक आईसी-2009, कंसिस्टिंग ऑफ 16 कोचेज" अनुमानित लागत (रु०में): ₹ 29697369.83, घरोहर राशि(रु०में): ₹ 298500.00, निविदा प्रपत्र का मूल्य:-रु शून्य, निविदा सामान्य की तिथि एवं अवधि: 11.00 बजे, 04.02.2026, सविदा की अंतिम: 12 माह। उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट <http://www.ireps.gov.in> पर देखे।

उप मुख्य यांत्रिक इंजी।/कार्य, यांत्रिक मुजाबि/यांत्रिक-122 कारखाना, गोरखपुर

गाइडों की छतों व पक्कदान पर कच्चापि गिराने न करें।

पूर्वोत्तर रेलवे ई-प्रापण निविदा सं.-1: **उप मुइ.ई-निर्माण-एलजेएन-11-2025** भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-प्रापण निविदा आमंत्रित करते हैं:-
क्रम सं.-1. खुली निविदा संख्या: उप मुइ.-नि.-एलजेएन-11-2025, दिनांक 13-01-2026, कार्य का नाम: सीतापुर-मैलानी खण्ड में झरखपुर हाट्ट को 3 लाईन क्रॉसिंग स्टेशन में परिवर्तन तथा देवकली हाट्ट को 3 लाईन क्रॉसिंग स्टेशन में परिवर्तन के साथ लाईन सं.-3 पर गुड्स जंक्शनकार्य का कार्य। अनुमानित निविदा मूल्य: ₹ 36,41,58,217.18, ब्यानां राशि: ₹ 19,70,800/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य:- लिये, कार्य पूर्ण करने की अवधि: 12 (बारह) माह।
● क्रम सं.-1, ई-टेण्डर डालने की अंतिम तिथि 06-02-2026 समय 15:00 बजे तक है तथा उत्ती दिन 15:30 बजे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण/पूर्वोत्तर रेलवे/ गोरखपुर के कार्यालय में खोली जायेगी।
● निविदा सूचना, योग्यता मानपद्ध, नियम एवं शर्त वेबसाइट <https://www.icreps.gov.in> अथवा वेबसाइट <https://www.nr.indianrailways.gov.in> पर भी देखा जा सकता है।
● निविदा सूचना में यहि होनी या अंग्रेजी को आलेखों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के ही आलेख मान्य होंगें।

उप मुख्य इंजीनियर/ निर्माण-1, लखनऊ जं.
गाइडों की छतों व पक्कदान पर कच्चापि गिराने न करें।



खिचड़ी वितरित करते जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन।

अमृत विचार

डीएम ने खिचड़ी सहभोज का किया आयोजन

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार । जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी सहभोज हनुमान गढ़ी मन्दिर तेतरी बाजार, नौगढ़ मे प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी द्वारा मन्दिर में पूजा किया गया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं में खिचड़ी का वितरण किया गया तथा सभी को शुभकामनाएं दिया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अजय सिंह व अन्य संबधित उपस्थित थे। इसके अलावा जिले भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने नदियों में स्नान कर पूजा- अर्चना की और गरीबों व जरूरतमंदों को दान आदि दिया।

उत्तर रेलवे				
इलेक्ट्रोनिक् निविदा ई प्रणाली के अंतर्गत मर्दों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे, आलम्बाग लखनऊ-226005 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मद के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-				
क्र. सं.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	51265003	Must Change Item for Brake Caliper as per FOTRIPL Part No. FT0051411-K75 for LHB Coaches. Item List is enclosed as Annexure-A. Make-Faiveley.	400 Set.	16.02.2026
निविदा शर्तें 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी। टेंडर नोटिस सं. 51265003 दिनांक : 15.01.2026 152/2026				
आहर्कों की सेवा में मुकान के साथ				

उत्तर रेलवे	
निविदा सूचना	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल, लखनऊ द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्रों पर निम्नलिखित कार्य हेतु अनुमति एवं स्थापित सक्षम ठेकेदारों द्वारा ई-निविदायें सिंगिल पैकेट सिस्टम द्वारा आमंत्रित की जाती है।	
निविदा सं.	106-Tele/Tender/19/2025-26
कार्य का नाम	उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के लखनऊ-सुल्तानपुर-जफराबाद खंड में आगामी निश्चिण हेतु दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए दूरसंचार का कार्य।
अनुमानित लागत	₹.57,73,996.96 /—
निविदा प्रपत्र की कीमत	शून्य
घरोहर राशि	₹.1,15,500.00 /—
कार्य पूरा करने की अवधि	90 दिन
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	04.02.2026 15:30 Hrs
वेबसाइट विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा दस्तावेजों को देखा जा सकता है।	www.ireps.gov.in बरिष्ठ सिगनल एवं दूरसंचार अभियंता कार्यालय /मं.रे.प्र. कार्यालय परिसर/ उत्तर रेलवे/ लखनऊ
<ul style="list-style-type: none">ठेकेदारों को ई-निविदा सिस्टम में माग लेने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।समस्त नियम एवं शर्तों निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है।मैनुअल निविदायें स्वीकृत नहीं की जायेगी।निविदा प्रपत्र एवं बयाना धनराशि का भुगतान सिर्फ नेट बैंकिंग या पैमेंट गेटवे द्वारा स्वीकृत की जायेगी।	
निविदा सू. सं. 106-टेली/ टेंडर /19/ 2025-26 दिनांक: 14.01.2026	
154/2026	
आहर्कों की सेवा में मुस्कान के साथ	

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद अमेठी

पत्रांक : मु०फि०अ०/विज्ञापन/2025-26/5578

दिनांक : 15.01.2026

निविदा सूचना

एतद्द्वारा जेम पोर्टल पर पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शगुन किट के क्रय हेतु जेम पोर्टल पर निविदा संख्या GEM/2026/B/7089340 दिनांक 13.01.2026 प्रकाशित की गयी है। जिसमें प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि 28.01.2026 अपराह्न 04-00 बजे है।

(डॉ० अंशुमान सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद- अमेठी

अमृत विचार

बलासीफाइड

सूचना	सूचना
पहले मेरा नाम MOHAMMAD AMAAN RAZA था अब मैंने बदलकर अपना नाम MOHD AMAAN RAZA रख लिया है भविष्य में मुझे MOHD AMAAN RAZA के नाम से जाना व पहचाना जाए। S/O- MOHD SALEEM R/O- 58/138, BAGH AINA BIBI HUSSAINGANJ, LUCKNOW	मैंने अपना नाम MOHD SHARIF से बदलकर SHAREEF ALAM रख लिया अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। S/O-ABDUL RAHMAN ADD-431/499 NEWATI TOLA SAHADATGANJ DIST- LUCKNOW-226001 (U.P.)

सूचना	सूचना
पहले मेरा नाम MOHAMMAD SALEEM था अब मैंने बदलकर अपना नाम MOHD SALEEM रख लिया है भविष्य में मुझे MOHD SALEEM के नाम से जाना व पहचाना जाए। S/O- MABOOD HUSSAIN R/O- 58/138, BAGH AINA BIBI HUSSAINGANJ, LUCKNOW	मेरा युपी बोर्ड हाई स्कूल वर्ष 2010 अनुक्रमांक 3725901 का अंकपत्र सह प्रमाण पत्र वास्तव में कहीं खोज गया है। प्रदीप कुमार सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह,निवासी ग्राम जुंगली गुरचाही मुडिला, जनपद- बलारामपुर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सिद्धि पुत्री सत्य प्रकाश यादव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।

मुद्रित/हस्ताक्षर को पुत्र को आधार का सं-0759397240186 में परिवर्तन नाम आयुष अंकित हो गया है। जो सत्य है। सत्य है मेरी पुत्री को उसके सही नाम सिद्धि पुत्री सत्य प्रकाश यादव से जाना व पहचाना जाए। मेरी पुत्री का लिंग महिला है जबकि आधार कार्ड पर पुरुष अंकित है जो भ्रुष्टिण है। ऐतद द्वारा भागीनित किया जाता है कि जसुपुत्र के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें सत्य मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आसक्ति/सत्य यादव प्रमाण- ड्यूना पो- आशापार, थाना- जेतपुर, तहसील- जलासपुर, अम्बेडकरनगर।

संपर्क एवं पता- प्लॉट नंबर 81B, चौदपुर हरबंसपुर, बल्लानगरपुर रोड, उत्तर प्रदेश - 224401

संपर्क- +91 98381 81846, +91 93157 6791

ईमेल- deepoffice123@gmail.com

वर्ल्ड व्रीफ

भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से घुसी पाकिस्तानी नौका जब्त



अहमदाबाद। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में एक पाकिस्तानी नौका को जब्त किया है, जिस पर चालक दल के नौ सदस्य सवार थे। गुजरात रक्षा विभाग के पीआरओ विंग कमांडर अभिषेक कुमार तिवारी ने कहा, चौदह जनवरी, 2026 को अरब सागर में गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के एक जहाज ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाली एक पाकिस्तानी नाव को देखा जिसने चुनौती दिए जाने पर पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने का प्रयास किया। आईसीजी के जहाज ने भारतीय जलक्षेत्र में नाव को रोका और तलाशी लेने के बाद जब्त कर लिया।

मनरेगा जॉब कार्ड नई योजना में भी चलेंगे

नई दिल्ली। मनरेगा जॉब कार्ड वाले श्रमिक नयी ग्रामीण रोजगार योजना ‘विकसित भारत-जी राम जी’ के लागू होने पर इसके तहत काम प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, ‘बीबी-जी राम जी’ योजना केंद्र द्वारा नियम बनाने और उन्हें अधिसूचित करने के बाद आगामी वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएगी। कानून के लागू होने की टाटीक समयसीमा हालांकि निर्दिष्ट नहीं की गई है।

कंटेनर से टकराया एआई का विमान, इंजन क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार को सुबह घने कोहरे के बीच, कागों कंटेनर से टकराकर एयर इंडिया का ए350 विमान का दाहिना इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। एयरलाइन ने कहा कि विमान को विस्तृत जांच के लिए उड़ान सेवा से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है और ए350 विमान की उड़ान वाले कुछ मार्गों पर संभवतः व्यवधान आ सकता है। एयरलाइन ने कहा, दिल्ली से न्यूयॉर्क (जेफ़फ़े) जाने वाली उड़ान एआई101 को ईरान के हवाई क्षेत्र के अप्रत्याशित रूप से बंद होने के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद, दिल्ली लौटना पड़ा, जिससे उसका निर्धारित मार्ग प्रभावित हुआ। दिल्ली में उतरने पर, घने कोहरे के बीच, विमान को टर्मिनल तक ले जाने के दौरान यह एक वस्तु से टकराया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा।

हैबिल्ड ने बनाया योग व्यूअरशिप का 8वां वर्ल्ड रिकॉर्ड

लखनऊ। हैबिट बिल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म हैबिल्ड ने एक दिन में सबसे अधिक योग व्यूअरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से अपने नाम किया है। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ग्रूिनियन द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह रिकॉर्ड पूरे दिन आयोजित छह लाइव ऑनलाइन योग सत्रों के माध्यम से बना, जिसमें सभी सत्रों की कुल सहभागिता को जोड़ा गया। इस पहल में दुनिया भर से लोगों ने भाग लिया। 9.3 लाख प्रतिभागी इस योग अभियान से जुड़े। इस उपलब्धि को खास बनाते हुए, हैबिल्ड ने एक स्कूल के निर्माण की भी घोषणा की। इस पहल के तहत, प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर नए प्रतिभागी की सहभागिता को स्कूल निर्माण में एक ईंट के योगदान के रूप में जोड़ा जाएगा। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड हैबिल्ड की ‘हर पर योग’ पहल का हिस्सा था। इस वर्ष की थीम नई शुरुआत के वादों पर आधारित थी। हैबिल्ड के को-फाउंडर और योग शिक्षक सौरभ बोथरा ने कहा, “यह दिन रिकॉर्ड बनाने से ज्यादा लोगों के खुद से दोबारा जुड़ने का था। जब सहभागिता सहज और स्वागतपूर्ण होती है, तो निरंतरता अपने आप आती है। हमारी कम्युनिटी से जुड़ने वाले हर व्यक्ति की ओर से हम इस स्कूल के निर्माण के लिए एक ईंट दान करेंगे।”

प्रेस को डराने के लिए छापे मार रही है पंजाब की आप सरकार

जालंधर, एजेंसी

पंजाब केसरी अखबार समूह ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि प्रवर्तन अधिकारी लगातार छापेमारी के जरिए उसे निशाना बना रहे हैं। समूह ने यह भी कहा कि यह सिलसिला राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ विपक्ष के आरोपों पर एक संतुलित और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रकाशित होने के साथ शुरू हुआ है।

अखबार समूह ने आरोप लगाया कि उसे और उसके सहयोगियों को प्रेस को डराने के मकसद से निशाना बनाकर ये छापे मारे गए। आम आदमी पार्टी और राज्य सरकार से इन आरोपों पर फिलहाल कोई जवाब नहीं मिल सका। विजय कुमार चोपड़ा, अविनाश चोपड़ा और अमित चोपड़ा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के प्रारंभ में कहा गया, हम हाल के कुछ घटनाक्रमों के संबंध में अपनी गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त

डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए केंद्र ने गठित की उच्चस्तरीय समिति

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, समिति में कई केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसियों के उच्चाधिकारी

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि उसने ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामलों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपती की शिकायत का स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की देशव्यापी एकीकृत जांच करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने साइबर अपराध के मामलों से निपटने के तरीकों पर गृह मंत्रालय समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से भी राय मांगी थी।



गृह मंत्रालय ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की व्यापक जांच के लिए विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति को सौंपे

पहली बैठक में सीबीआई ने दिया मौद्रिकसीमा तय करने का सुझाव

मंत्रालय ने बताया कि समिति की पहली बैठक 29 दिसंबर को हुई थी, जब सीबीआई ने मामलों के लिए एक मौद्रिक सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया था। गृह मंत्रालय ने बताया कि आई4सी ने सूचित किया है कि रकम की निकासी को तत्काल रोकने एवं उसे वापस हासिल करने के लिए एसओपी पर अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और 1930 हेल्पलाइन के पुनर्गठन पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। समिति ने पीड़ित को मुआवजे के लिए न्याय मित्र के सुझाव पर भी विचार किया और इस बात पर सहमति जताई कि ऐसी राहत तभी दी जा सकती है जब नुकसान लापरवाही के कारण हुआ हो या बैंकों या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सेवा में चूक या धोखाधड़ी हुई हो।

गए कार्यों में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सामना किए जाने वाले ‘रियल टाइम’ मुद्दों की जांच करना, न्याय मित्र की सिफारिशों और अदालत के निर्देशों पर विचार करना, संबद्ध कानूनों, नियमों, परिपत्रों और कार्यान्वयन की कमियों की पहचान करना, सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना शामिल है। समिति

के सदस्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सीबीआई, एनआईए, दिल्ली पुलिस और आई4सी के अधिकारी शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि आई4सी

के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समिति के सदस्य-सचिव होंगे। इसमें यह भी कहा गया कि समिति की बैठक हर दो सप्ताह में होगी। समिति ने आगे विचार-विमर्श और सुझावों के लिए न्यायालय से एक महीने का समय मांगा, जिसके बाद मामले की आगे की कार्यवाही 20 जनवरी के लिए तय की गई।

चुनाव में मिटने वाली स्याही के उपयोग के आरोपों से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति

विपक्ष ने चुनाव आयोग पर लगाए साठगांठ के आरोप, मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया खारिज

मुंबई, एजेंसी

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निकायों के लिए मतदान के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई, जिनमें दावा किया गया था कि एसीटोन जैसे रसायनों का उपयोग कर मतदाताओं की उंगली पर लगाई गई स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है। विपक्ष के नेताओं ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए आरोप लगाने शुरू कर दिए कि राज्य चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन से साठगांठ कर चुनावी अखंडता को कमजोर किया है। हालांकि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप हार के लिए पहले से तैयार किया गया बहाना हैं। शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने राज्य चुनाव आयुक्त के निलंबन की मांग की है। मनसे नेता राज ठाकरे ने पूछा, लोग बाहर आते हैं, स्याही पोंछते हैं और फिर से वोट डालने के लिए अंदर जाते हैं। फिर वे बाहर आते हैं, इसे फिर पोंछते हैं और दोबारा प्रवेश करते हैं। क्या इसे ही सरकार विकास कहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ महायुति

● फडणवीस बोले- हार के लिए ये विपक्ष का पहले से तैयार बहाना



बीएमसी चुनाव के लिए परिवार के साथ मतदान कर निकलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस।

गठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज ठाकरे ने दावर में वोट डालने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए दावा किया कि मतदाताओं की उंगलियों पर लगे निशान को सैनियाइजर से पोंछा जा सकता है, जिससे दोबारा मतदान संभव हो जाता है। उन्होंने सरकार और चुनाव प्रशासन पर ऐसे वाक्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने अपना वोट डालने के बाद एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनकी उंगली पर

● उद्धव ठाकरे ने की राज्य निर्वाचन आयुक्त के निलंबन की मांग

लगाई गई अमिट स्याही को कथित तौर पर ‘नेल पॉलिश रिमूवर’ का उपयोग करके हटाया जा सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा-एसपी) के रोहित पवार ने तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की और सवाल किया कि क्या निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की खरीद भ्रष्टाचार या जानबूझकर बनाए गए दबाव का परिणाम थी। एक टीवी चैनल के पत्रकार ने पनवेल से लौटने के तुरंत बाद अपने स्टूडियो में एसीटोन का उपयोग करके स्याही मिटाने का एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने पनवेल में अपना वोट डाला था।

स्याही मिटने की घटनाएं कई जिलों में

उपनगरीय मुम्बई के गोरेगांव, अंधेरी, मलाड, पवई और कांदिवली के विभिन्न बूथों के कई मतदाताओं ने आरोप लगाया कि वोट डालने के बाद उंगलियों पर स्याही लगाने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा साधारण मार्कर पेन का उपयोग किया गया था। केवल सरकार द्वारा निर्मित अमिट स्याही का उपयोग करने की मानक प्रथा से इस तरह के विचलन को लेकर मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मतदाताओं की उंगलियों पर स्याही के निशान आसानी से मिटने की इसी तरह की घटना कोल्हापुर जिले के साथ- साथ पुणे से भी सामने आई।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा- स्याही की गुणवत्ता की जांच कराएंगे

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने बृहस्पतिवार शाम कहा कि वह बीएमसी चुनावों में मतदान के दौरान मार्कर कलम में इस्तेमाल की गई पक्की स्याही की गुणवत्ता की गहन जांच करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने यह भी कहा कि विवाद को देखते हुए आयोग आगे जिला परिषद चुनावों में मार्कर पेन का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक स्याही का उपयोग करेगा जिसका उत्पादन कर्नाटक सरकार की कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वॉर्निश लिमिटेड करती है। उन्होंने कहा, दिन भर वायरल किए गए वीडियो की भी जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि मतदान के दौरान उंगली पर यह स्याही लगाई गई थी या किसी शरारतपूर्ण तरीके से ऐसा किया। वाघमारे ने कहा, स्याही की गुणवत्ता का फार्मूल को निर्वाचन आयोग ने अंतिम रूप दिया है और एक निजी कंपनी ने राज्य चुनाव आयोग को मार्कर पेन की आपूर्ति की है। हम 2011 से सभी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इन पेन का उपयोग कर रहे हैं। वाघमारे ने यह भी कहा, अगर स्याही सूखने से पहले मिटाई जाती है तो यह मतदाता की गलती है। ऐसे मतदाताओं के खिलाफ अपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

झारखंड : ईडी अपने कार्यालय पर पुलिस के छापे के बाद कोर्ट पहुंची

रांची, एजेंसी

झारखंड पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची कार्यालय पर छापेमारी के खिलाफ संघीय एजेंसी ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय का रुख किया। ईडी ने झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में कार्यालय में छापेमारी की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया और पुलिस द्वारा संघीय एजेंसी के कामकाज में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।

पुलिस दिन में रांची स्थित ईडी परिसर में दाखिल हुई थी और तलाशी एवं जल्दी अभियान चलाया था। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पीएचईडी) के कर्मी संतोष द्वारा दर्ज कराई गयी प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। संतोष ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि एक मामले में पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने उसे यातनाएं दी और दुर्व्यवहार किया। प्राथमिकी के आधार पर रांची पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के परिसर

और साक्ष्य पेश करने हाईकोर्ट पहुंची पीड़िता

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ कुलदीप सेंगर की ओर से दायर अपील में और तथ्य रिकॉर्ड पर लाने के लिए पीड़िता ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। अर्जी में पीड़िता ने कहा कि वह अदालत के समक्ष ऐसे तथ्य और दस्तावेज पेश करना चाहती है जो हालिया घटनाक्रमों के साथ उसे और परिवार के खतरे को दर्शाते हैं।

अर्जी में यह भी अनुरोध किया गया है कि

पायलटों के संगठन ने जांच के संबंध में एएआईबी को कानूनी नोटिस भेजा

मुंबई, एजेंसी

भारतीय पायलट संघ (एफआईपी) ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) को सुमित सभरवाल के रिश्तेदार को तलब करने के संबंध में कानूनी नोटिस भेजा है। सुमित सभरवाल उन दो पायलट में से एक थे जिनकी पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

दुर्घटना की जांच के सिलसिले में एएआईबी ने दिवंगत सभरवाल के रिश्तेदार और एयर इंडिया के ‘नैरो-बॉडी’ विमान पायलट कैप्टन वरुण आनंद को तलब किया है। आनंद एफआईपी के सदस्य भी हैं। एफआईपी ने 11 जनवरी को एएआईबी को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा, कैप्टन वरुण आनंद उक्त दुर्घटना के संबंध में न तो तथ्यात्मक

सूची से हटाए वोटरों के नाम प्रकाशित करे ईसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को केरल में एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे से हटाए नामों को सार्वजनिक करने का गुरुवार को निर्देश दिया, ताकि प्रभावित मतदाता आपत्ति दर्ज करा सकें। सीजेआई सुर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से नामों को हटाने के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा को दो सप्ताह तक बढ़ाने पर विचार करने को भी कहा। आयोग के वकील ने दलील दी कि समय सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। पीठ, केरल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह की सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में कहा गया कि वर्तमान में जिस प्रकार से एसआईआर प्रक्रिया जारी रही है, उसमें तकनीकी ग़ुटियों और मजबूत निवारण तंत्र के अभाव से आबादी के बड़े हिस्से के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है।

कोमा में गए बेटे को इच्छामृत्यु पर फैसला सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने 31-वर्षीय व्यक्ति के पिता की उस याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 12 साल से अधिक समय से कोमा में गए बेटे के कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरण को हटाकर उसे परोक्ष इच्छामृत्यु देने का अनुरोध किया गया है। याचिका के मुताबिक, हरीश राणा 2013 में इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे और उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। वह 12 वर्षों से कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिडिस्टर जनरल (एएसजी) ऐवर्वा भाटी और याचिकाकर्ता (पिता) अशोक राणा की अधिवक्ता रश्मी नंदकुमार की दलीलें सुनीं।

झारखंड : ईडी अपने कार्यालय पर पुलिस के छापे के बाद कोर्ट पहुंची

● अपने काम में दखलंदाजी का आरोप, सीबीआई से जांच कराने का आग्रह

ईडी ने अपने अफसर पर रिश्तत का आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार किया

कोच्चि/नई दिल्ली। ईडी ने राज्य में तैनात एजेंसी के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केरल के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कोल्कम निवासी विमान बाबू को एजेंसी के कोच्चि कार्यालय में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ काजू नियात से जुड़े घन शोधन मामले में कार्रवाई की गई। ईडी ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान बाबू टालमटोल कर रहा था तथा तंजानिया से कच्चे काजू के आयात का झूठा दावा कर व्यापारियों से धन लेने और अपराध की कमाई के इस्तेमाल तथा उसे विदेश में रखने की जानकारी देने में विफल रहने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पर छापा मारा और उसके अधिकारियों से पूछताछ की। इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को दोबारा होनी है।

उसके स्कूल के दो अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएं, ताकि उसकी जन्मतिथि सत्यापित हो सके। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सेंगर ने जांच प्रभावित करने के लिए उसकी उम्र से संबंधित फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिन्हें अपील में आधार बनाया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने पाया कि अपील सुनवाई के अंतिम चरण में है और पीड़िता की अर्जी पर विचार के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की।



जल्लीकटू शुरू, 32 घायल

मदुरै। मदुरै के अविनायपुरम में सांडों को काबू करने की प्रतियोगिता जल्लीकट्टू के दौरान गुरुवार को 32 लोग घायल हो गए। पीपल 2026 फसल कटाई उत्सव सत्र में होने वाली सांड काबू करने की तीन प्रमुख पारंपरिक प्रतियोगिताओं में से पहली प्रतियोगिता यहां अविनायपुरम में गुरुवार को शुरू हुई, जिसमें 550 लोग अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मदुरै में आयोजित तीन दिवसीय जल्लीकट्टू उत्सव में भाग लेने के लिए 1,100 सांडों और सांड काबू करने वालों का पंजीकरण हुआ है। पांचवें दौर के अंत तक 464 सांड छोड़े गए, जिनमें 275 काबू में नहीं आए और 189 सांड पर काबू पा लिया गया। इस दौरान घायल हुए 32 लोगो में एक दर्शक, सांड काबू करने वाले 17 लोग और 14 सांड मालिक हैं। इनमें से पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीदरलैंड जापान सहित कुछ अन्य देशों के लोग भी यह प्रतियोगिता देखने पहुंचे।

सिख परंपराओं पर टिप्पणी के लिए अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए मुख्यमंत्री मान

अमृतसर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिख परंपराओं और सिद्धांतों के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर तलब किए जाने के बाद गुरुवार को तख्त सचिवालय के समक्ष पेश हुए। उन्होंने गुरुवार को अकाल तख्त सचिवालय में पेश होने से पहले स्वर्ण मंदिर में मल्था टेका।

जन नायकन निर्माता सीबीएफसी मंजूरी को हाईकोर्ट जाएं

नई दिल्ली। विजय-अभिनीत फिल्म जन नायकन की रिलीज टलती जा रही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश देने संबंधी फिल्म निर्माता की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी तथा उन्हें 20 जनवरी को फिर से मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष जाने को कहा।


केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें तमिल फिल्म जन नायकन को प्रमाण-पत्र जारी करने के एकल-न्यायाधीश के निर्देश पर रोक लगा दी गई थी।

सुरक्षा चिंता

शांति एक्ट 2025 में सुरक्षा नजरंदाज, निवेश को प्राथमिकता

जालंधर, एजेंसी

केंद्र सरकार की ओर से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लागू गए शांति एक्ट 2025 की ऑल इंडिया पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने कड़ी आलोचना की है। एसोसिएशन ने कहा है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 महत्वपूर्ण पहलुओं से समझौता कर केवल निवेश को प्राथमिकता देता है।



एसोसिएशन के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार ने इतने गंभीर कानून को बिना किसी सेलेक्ट कमेटी से जांच कराए विपक्ष के विरोध और वॉकआउट के बीच जल्दबाजी में पारित कर दिया है। गुप्ता के अनुसार, नए कानून में सल्लाह की जिम्मेदारी को पूरी तरह हटा

दिया गया है और केवल ऑपरेटरों की जवाबदेही तय की गई है, वह भी प्लांट की क्षमता के आधार पर सीमित है न कि दुर्घटना से होने वाले वास्तविक नुकसान के आधार पर।

एसोसिएशन ने कहा कि ऑपरेटर की जिम्मेदारी को 100 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपये

लाखों जानों के लिए खतरा, जवाबदेही मामूली एसोसिएशन का कहना है कि यदि किसी बड़े रिपक्टर में दुर्घटना होती है, तो उसके रेडियोएक्टिव प्रभाव से लाखों लोगों की जान जा सकती है और वर्षों तक आर्थिक व कृषि गतिविधियां ठप हो सकती हैं, ऐसी स्थिति में जवाबदेही की यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसके अतिरिक्त, बिजली कर्मचारियों ने इस एक्ट के तहत निजी न्यूक्लियर प्लांट्स को ‘मस्ट-रन’ का दर्जा दिए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। इसका अर्थ यह है कि बाजार में बिजली के सस्ते स्रोत उपलब्ध होने के बावजूद सरकार को इन निजी स्टेशनों से बिजली खरीदना अनिवार्य होगा, जिसका बोझ अंततः जनता पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सलायार की जवाबदेही खत्म होने और कम जुर्माने के प्रावधानों से सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं।

तक सीमित करना ‘पॉल्यूटर पेज की ज़िंदगी’ का उल्लंघन है और यह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी जैसे कड़वे अनुभवों से सीख

न लेने जैसा है। यह एक्ट लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा के साथ पर्यावरण पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

अमृत विचार

शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

उल्लेखनीय उपलब्धि

नीति आयोग के लगभग 70 संकेतकों के आधार पर तैयार एक्सपोर्ट प्रोपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान ऐतिहासिक उपलब्धि है। परंपरागत रूप से तटीय और औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात की निर्यात क्षमता अधिक होना स्वाभाविक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का दो वर्षों में सातवें से चौथे पायदान तक पहुंचना दर्शाता है कि राज्य के निर्यात-समर्थ अवसंरचना और नीतिगत सुधार पर केंद्रित प्रयास सफल रहे हैं। उत्तराखंड ने भी इस सूचकांक में छोटें राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है, यह दर्शाता है कि सीमित भौगोलिक और संसाधन बाधाओं के बावजूद नीति-प्रेरित सुधार और बेहतर व्यापार वातावरण से कैसे सफलता पाई जा सकती है। हिमालयी राज्य ने निर्यात के लिए अनुकूल नीतियों तथा स्थानीय स्किलिंग पर ध्यान देकर यह सफलता हासिल की है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश लैंडलॉकड राज्य होते हुए भी चौथे स्थान पर पहुंचा है।

पारंपरिक तटीय राज्यों की तुलना में यहां निर्यात-लॉजिस्टिक्स खर्च अधिक होने की समस्या है, लेकिन बेहतर रोड-कनेक्टिविटी, ड्राई पोर्ट और कंटेनर बेस्ड लॉजिस्टिक्स हब तथा लॉजिस्टिक्स सुधारों ने निर्यातकों को महत्वपूर्ण समर्थन दिया। बेशक यह सफलता उक्त प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के विजनरी नेतृत्व, नीति-निर्माण और सुशासन की क्षमता का परिणाम है। निर्यात सूचकांक में बेहतर रैंकिंग ने यह साफ किया है कि प्रदेश ने नीतिगत सुधारों, अवसंरचनात्मक निवेश तथा व्यापार-मैत्री वातावरण के निर्माण में उठाए महत्वपूर्ण कदम कारगर रहे और अब उत्तर प्रदेश देश के निर्यात मानचित्र पर ‘ग्लोबल हब’ के रूप में उभरने जा रहा है। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन उत्पाद, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, माल भाड़ा व्यव्य प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणिकरण सहायता तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग ने उत्पादकों और निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लायक बनाया, तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसी पहल ने स्थानीय उत्पादकों को सीधे विदेशी खरीदारों से जोड़ने का अवसर दिया। पारंपरिक हस्तशिल्प, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि वस्तुओं के निर्यात आदेशों में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की गई। इन प्रयासों ने न केवल उत्पादों के निर्यात में मदद की, बल्कि प्रदेश के ब्रांड वैल्यू को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती देने के साथ ही सूचकांक में सूचकांक के बिजनेस इकोसिस्ट्म, निर्यात अवसंरचना जैसे अवयवों में बेहतर स्कोर दिलाया। निर्यात राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन होता है। इससे विदेशी मुद्रा का संचय होने के अलावा व्यापार घाटा भी कम होता है और बाहरी निवेश आकर्षित होता है। हालांकि यह सूचकांक संबंधी उपलब्धि एकाकी प्रमाण नहीं है, पर यह संकेत अवश्य देता है कि नीति, अवसंरचना, तथा व्यापार सुविधाओं में सुधर स्पष्ट है और निर्यात वातावरण अधिक प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, जिसके चलते निर्यात प्रदर्शन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स, सर्विस एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी-आधारित उत्पादन तथा वैश्विक बाजारों में विविधीकरण पर निरंतर ध्यान आवश्यक है। उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के बेहतर प्रदर्शन से इन राज्यों में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार अवसरों के बढ़ने की संभावना बनी है, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी तो सामाजिक एवं बुनियादी सुविधाओं पर अधिक व्यय संभव होगा।

प्रसंगवश

दूषित जल स्रोतों से कैसे पहुंचेगा घरों में स्वच्छ जल

इंदौर के एक मुहल्ले भागीरथपुर में लगातार हो रही मौतों की संख्या बढ़कर 23 हो गई, तो उधर गुजरात की राजधानी गांधी नगर के कुछ इलाकों और आदिवाड़ा क्षेत्रों में दूषित पानी पीने से कई सौ लोगों को पीलिया और टाइफाइड होने के बाद कोहराम है। अधिकांश बीमार बच्चे हैं और अस्पताल में हैं। इसी दौरान अब देशभर से घर में आ रहे नल के जल के असुरक्षित होने के समाचारों का अंबार है। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार की 2015 में शुरू की गई अउल मिशन या अमृत-1 योजना में पाइप डालने और टंकी खड़े करने पर सन 2021 तक 72,656 करोड़ रुपये खर्च हुए और उसके बाद अमृत-2 में भी भारी भ्रकम व्यय हो रहा है, लेकिन तैयार संरचनाओं के रखखाव, गुणवत्ता निर्धारण पर सभी जगह बेपरवाही देखी गई। केंद्र सरकार के बजट से योजनागत तो तैयार हो गई, लेकिन स्थानीय निकाय उनके निर्धारित मानक पर काम नहीं कर पा रहे। देश की राजधानी दिल्ली में



ही अमृत-1.0 के तहत जल आपूर्ति, सीवेरज और शहरी बुनियादी ढांचे पर कुल 266 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। इनमें 215 करोड़ रुपये जल आपूर्ति पर खर्च हुए। इसके बावजूद दिल्ली की कोई 10 प्रतिशत आबादी के घर तक नल नहीं पहुंच पाए। दिल्ली जल बोर्ड के दिसेंबर 2025 के सैपल टेस्ट में 33 नमूने फेल हुए, जिसमें भलस्वा, जनकपुरी, अशोक नगर के साथ गांधी नगर जैसे क्षेत्रों में गंदा पानी पाया गया। यमुना प्रदूषण, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन और अनुपचारित सीवेज मिश्रण से टीडीएस, कैल्शियम व सल्फेट स्तर मानक से अधिक है। समझना होगा कि दिल्ली में जल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भू-जल है। भलस्वा, गाजीपुर और ओखला के साथ ही बवाना में इंजीनियर सैनटिनी लैंडफिल के पास का भूजल दूषित बना हुआ है। नेशनल सैपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की 76 वीं रिपोर्ट बताती है कि देश में 82 करोड़ लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी मिल नहीं पा रहा है। देश के महज 21.4 फीसदी लोगों को ही घर तक स्वच्छ जल उपलब्ध है। सबसे दुखद है कि नदी-तालाब जैसे भूतल जल का 70 प्रतिशत बुरी तरह प्रदूषित है। सरकार भी स्वीकार रही है कि 78 फीसदी ग्रामीण और 59 प्रतिशत शहरी घरों तक स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। सारे देश के शहरी इलाकों में नल से आ रहे पानी के दूषित होने के लगभग एक जैसे कारण हैं। पहले से दूषित स्रोत से घर तक पानी के पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़े पड़ाव ‘बड़ी पानी की टंकी’ या फिर ‘जलाशय’ खुद बीमार रहते हैं।

पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी ‘एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली’ (आईएमआईएस) द्वारा सन 2018 में पानी की गुणवत्ता पर करवाए गए सर्वे के मुताबिक राजस्थान में सबसे ज्यादा 19,657 बस्तियां और यहां रहने वाले 77.70 लाख लोग दूषित जल पीने से प्रभावित हैं। आईएमआईएस के मुताबिक पूरे देश में 70,736 बस्तियां फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व और नाइट्रेट सहित अन्य लवण एवं भारी धातुओं के मिश्रण वाले दूषित जल से प्रभावित हैं। इस पानी की उपलब्धता के दायरे में 47.41 करोड़ आबादी आई है। यह कड़वा सच है कि भारत इस समय तेजी से शहरीकरण की तरफ भाग रहा है और अधिकांश अनियोजित शहरीकरण। शहरी नियोजन का प्राथमिक सिद्धांत कहता है कि पीने के पानी और सीवर की लाइनें कभी भी एक-दूसरे के इतने करीब नहीं होनी चाहिए कि एक का रिसाव दूसरे को ‘जहर’ बना दे। बहुत से शहरों में स्मार्ट सिटी के नाम पर भी कई करोड़ खर्च हो चुके हैं। हाल की घटनाओं ने सारे देश को चेतावनी दे दी है कि जब तक ‘जमीन के ऊपर’ की सफाई ‘जमीन के नीचे’ की सुरक्षा के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगी, तब तक ‘स्वच्छता या स्मार्ट’ के ये पदक अधूरे ही रहेंगे।



हम सभी ईश्वर से दया की प्रार्थना करते हैं और वही प्रार्थना हमें दया करना भी सिखाती है।
–विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी साहित्यकार

भारत के लिए चिंता का विषय ईरान का संकट



दिसंबर 2025 के अंत में ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ व्यापक विरोध-प्रदर्शन न सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन की मांग में तब्दील हो गया है, बल्कि इसने इस इस्लामिक गणराज्य के समक्ष हाल के वर्षों की सबसे गंभीर आंतरिक चुनौती खड़ी कर दी है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका स्थित ब्लूमन राइट एंक्विस्टिस्ट न्यूज एजेंसी (एचआरएएनए) के अनुसार हिंसक झड़पों में अब तक 2,572 लोगों की मौत हो जाने और 10 हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है।

सुरक्षा की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि भारत ने ईरान में रह रहे अपने सभी नागरिकों से बुधवार को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। विदेश मंत्रालय ने पांच जनवरी को जारी पिछले परामर्श में अपने नागरिकों से ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया था। साथ ही ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) से सावधानी बरतने और प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जाने से बचने को कहा था। वहीं ईरान के प्रधान न्यायाधीश ने सरकार विरोधी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और फांसी की सजा देने की बात कही है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई खुद प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे चुके हैं। ईरान में हो रहे प्रदर्शनों से पश्चिम एशिया में भी व्यापक तनाव पैदा हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई के खिलाफ तेहरान को चेतावनी दी है।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि “मदद पहुंचने वाली है।” महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ दिसंबर 2025 में तेहरान में शुरू हुआ यह जनक्रोश ईरान के सभी 31 प्रांतों में

– मायावती, बसपा प्रमुख



बाघों के संरक्षण की सफलता या संघर्ष की शुरुआत



भारत में बाघों की स्थिति आज एक गहरे और असहज विरोधाभास से गुजर रही है। एक ओर हम गर्व के साथ यह कहते नहीं थकते कि दुनिया में सबसे अधिक बाघ भारत में हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन पर घट रही घटनाएं इस दावे की खोखली सच्चाई को उजागर कर रही हैं। हाल ही में गुजरात में 36 बाघों की खाल का बरामद होना और पिछले वर्ष देशभर में 166 बाघों का मृत पाया जाना, जिसमें से 55 तो टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश से ही हैं। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि चेतावनी हैं, एक ऐसी चेतावनी, जिसे अगर अब भी नजरअंदाज किया गया, तो आने वाले वर्षों में बाघ संरक्षण की पूरी कहानी ही सवालों के घेरे में आ जाएगी।

आज जब दुनिया के कई देशों से बाघ लगभग विलुप्त हो चुके हैं, तब भारत यह दावा करता है कि उसके पास विश्व की सबसे बड़ी बाघ आबादी है, लेकिन इसी सफलता के बीच एक डरावना प्रश्न खड़ा हो गया है, क्या यह असह्य संरक्षण की जीत है या गहरे संघर्ष की शुरुआत? पिछले वर्ष देश में 166 बाघों की मौत इस प्रश्न को और तीखा बना देती है। गुजरात में 36 बाघों की खाल का मिलना केवल एक राज्य या एक गिरोह का मामला नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क, कमजोर निगरानी व्यवस्था और संरक्षण तंत्र की गंभीर चूक को इशारा करता है। बाघ की खाल, हड्डियां और अन्य अंग आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर बिकते हैं। खालों की बरामदगी यह भी बताती है कि संरक्षण केवल जंगलों तक सीमित नहीं रह सकता। यह एक कानून-व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मुद्दा भी है। जब तक तस्करी के पूरे नेटवर्क को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक केवल निचले स्तर के अपराधियों को पकड़ने से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। बाघ के अंगों की तस्करी आज भी एक बड़ा संगठित



300 से अधिक स्थानों पर फैलकर एक राजनीतिक संकट में बदल गया, जिसमें प्रदर्शनकारी खुलकर सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं।

ईरान का मौजूदा संकट यही दर्शाता है कि आर्थिक कुप्रबंधन और राजनीतिक कठोरता के दीर्घकालिक रणनीतिक परिणाम होते हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाया जा रहा नारा ‘न गाजा, न लेबनान, ईरान के लिए मेरी जान’ यह इस बात का साफ संकेत देता है कि यहूदी विरोध की नीति यहूदी विरोधी को ही खत्म कर देती है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने संयम बरतने और हिंसा से बचने की अपील की है, वहीं न्यायपालिका, सुरक्षा तंत्र और सर्वोच्च नेतृत्व का रुख कहीं अधिक सख्त है। यह संकट से निपटने में शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर असहमति को भी दर्शाता है। यूरोपीय देशों, आस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों और इंटरनेट बंदी की निंदा की है। इसके जवाब में तेहरान ने अमेरिका और इजरायल पर विरोध भड़काने का आरोप लगाया है और समूचे घटनाक्रम को विदेशी साजिश बताया है।

इस पूरे परिदृश्य ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत के लिए भी यह संकट केवल एक दूरस्थ आंतरिक उथल-पुथल नहीं, बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ईरान में अस्थिरता से भारत के रणनीतिक और कुछ हद तक आर्थिक हित भी प्रभावित हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार है और वर्तमान अशांति इसके निर्यात पर भी कुछ असर पड़ रहा है। इसके साथ ही ऐसी ही एक चिंता ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ से जुड़ी है। इससे भी बड़ी चिंता चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर

है, जिसमें भारत ने करीब 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यह बंदरगाह भारत के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंच प्रदान करता है। यह ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ नीति का अहम स्तंभ और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे यानी आइएनएसटीसी का प्रमुख हिस्सा है, जिससे परिवहन समय और लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। ईरान में लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता इस परियोजना की समयसीमा, निरंतरता और रणनीतिक मूल्य को प्रभावित कर सकती है। चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीन की मौजूदगी के संतुलन के रूप में भी देखा जाता रहा है। यदि ईरान में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है, तो बीजिंग को वहां अपने प्रभाव विस्तार का अवसर मिल सकता है।

भारत के ऊर्जा हित भी इस परिदृश्य से जुड़े हैं। प्रतिबंधों के कारण भले ही हाल के वर्षों में ईरान से ऊर्जा आयात सीमित रहा हो, लेकिन क्षेत्रीय ऊर्जा समीकरणों में ईरान की भूमिका अहम बनी हुई है। राजनीतिक अस्थिरता भविष्य के ऊर्जा संश्लेषण को और जटिल बना सकती है। इन परिस्थितियों में भारत की कूटनीतिक रणनीति संतुलित और व्यावहारिक रही है। जनवरी के मध्य में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की संभावित भारत यात्रा इसी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें चाबहार, क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और पश्चिम एशिया के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है ‘ग्लोबल साउथ’ की एक प्रमुख पहलू। इन अवसरों के माते भी इस मामले में उसकी भूमिका अहम हो जाती है। इसमें भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करे और वह भी ईरान के आंतरिक संघर्षों या महाशक्तियों को प्रतिद्विद्धता में उलझे बिना।

वैचारिकी

8

सोशल फोरम

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी आवश्यक

आखिर कौन हैं सीमा आनंद, जो मुख्यतः सेक्स, कामुकता और कामसूत्र आदि गंभीर विषयों पर खुलेतौर पर बात करती हैं। सीमा लंदन में रहती हैं, वे एक लेखिका, माइथोलॉजिस्ट सेक्स एजुकएटर हैं। वे सेक्स को अश्लील नहीं मानती, बल्कि इसे प्राकृतिक और ऊर्जा के रूप में समझने की बात करती हैं



वे सोशल मीडिया में आजकल इसलिए चर्चा में हैं, क्योंकि हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उनके बयानों पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने बताया कि 15 साल के लड़के ने उन्हें आकर्षक बताया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, साथ ही उन्होंने कामसूत्र पर भी खुलकर चर्चा की। कुछ लोग उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं

कुछ लोग आलोचना। यह कहना कि वे सी फीसदी सही हैं या गलत हैं ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह ज्यादातर व्यक्तिगत दृष्टिकोण और संस्कृति पर निर्भर करता है। वे सेक्स संबंधों पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देती है ताकि लोग डर व शर्म महसूस न करें। यह एक सकारात्मक मानसिकता के लिए सही हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां सेक्स और कामुकता आज भी पदें में है। वहां ऐसी प्रतिक्रियाएं और आलोचना आना स्वाभाविक है।

माना कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन जब उदाहरण नाबालिग से जुड़ता है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। सीमा जैसे प्रभावशाली लोगों को समझना चाहिए कि उनके शब्दों का असर कहां तक जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी आवश्यक है। पश्चिमी समाज और भारतीय समाज की संवेदनाएं अलग-अलग हैं, इसलिए भारत में इस तरह के विचार रखते समय सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सेक्स एजुकेशन जागरूकता के लिए हो, न कि सनसनी फैलाने के लिए होनी चाहिए। आधुनिकता के नाम पर हर बात सही नहीं हो जाती। संवाद के साथ मर्यादा का भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

–फेसबुक वॉल से



सामयिकी

साइबर फ्रॉड : जब खतरा बन जाए तकनीक

तकनीक ने हमारी जिंदगी को नई गति दी है। ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाएं अब एक क्लिक पर उपलब्ध हैं, लेकिन इसी डिजिटल क्रांति की छाया में एक बड़ा जोखिम भी मजबूत हुआ है। साइबर फ्रॉड, जहां अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर भारत के नागरिकों को धोखा, डेटा और धरोसे से वंचित कर रहे हैं। 2024-25 के ताजा आंकड़े इस खतरे की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। 2024 में देशभर में लगभग 36.37 लाख साइबर फ्रॉड की घटनाएं दर्ज की गईं और लोगों ने लगभग 22,845.73 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट किया, जो 2023 की तुलना में 206 प्रतिशत की वृद्धि है। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी, जिसमें बताया गया कि एनसीआरपी और सीएफआरएमस जैसे पोर्टल्स पर बढ़ पैमाने पर शिकायतें दर्ज हुईं। इन प्रणालीगत डेटा के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अब यह केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। साइबर फ्रॉड के स्वरूप भी पहले से अधिक जटिल हो गए हैं।



राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि साइबर फ्रॉड की गतिविधियां देश के लगभग हर हिस्से में फैली हैं, लेकिन कुछ राज्यों में घटनाओं की संख्या विशेष रूप से उच्च है। भारत में 2024 में महाराष्ट्र ने लगभग 3,03,000 शिकायतों के साथ सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड मामले रिपोर्ट किए, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 3,01,000, कर्नाटक में लगभग 1,69,000, गुजरात में लगभग 1,68,000 और दिल्ली में लगभग 1,53,000 मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से पता चलता

है कि बड़े आबादी वाले राज्य और आर्थिक केंद्र साइबर फ्रॉड के अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इन राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के साथ ही 2025 में भी साइबर फ्रॉड की घटनाएं हुईं। उदाहरण के लिए तेलंगाना पुलिस ने 547 करोड़ के बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें बहुराज्यीय खाते उपयोग किए गए थे और आरोपियों ने फर्जी नौकरी के ऑफर तथा क्रिप्टो सहित अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया था। 2025 के दौरान हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोकथाम और बचाव के कार्यक्रम के तहत लगभग 36 प्रतिशत ठगे गए धन को रोक दिया, जिससे लगभग 350 करोड़ बचाए गए। पुलिस ने 1,41,685 शिकायतें प्राप्त कीं और 8000 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह डेटा दिखाता है कि तकनीक-समर्थित और समन्वित प्रयासों से नुकसान को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार साइबर अपराध में वृद्धि के पीछे कई कारक हैं। डिजिटल पेमेन्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता, सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का विकास, फर्जी वेबसाइट और ऐप्स का प्रसार और अपराधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण। उदाहरण के लिए साइबर फ्रॉड से जुड़े नेटवर्कों में अक्सर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग और वैश्विक सिमबॉक्स तकनीक शामिल होती है, जिससे ट्रैकिंग्स को छुपाया जाता है। साइबर फ्रॉड का आर्थिक असर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन साइबर फ्रॉड केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, यह धरोसा और मानसिक स्थिति पर भी असर डालता है। ऐसे मामलों में लोग अक्सर शर्म, डर या असहय महसूस करते हैं, जिसके कारण वे देरी से शिकायत दर्ज करते हैं या पुलिस से संपर्क नहीं करते। इससे अपराधियों को अधिक अवसर मिलता है। इस खतरे से निपटने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सीएफआरएमस जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देते हैं। पुलिस बलों ने साइबर सेल, विशेष इकाइयों और प्रौद्योगिकी-आधारित माँड्यूल को लांच किया है, जिससे फ्रॉड को रोकने और मामलों की जांच में मदद मिलती है। फिर भी, केवल कानूनी उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं। साइबर फ्रॉड केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है। यह जागरूकता, सामूहिक सुरक्षा और सतर्कता की जरूरत है ताकि डिजिटल भविष्य आशा का कारण रहे, डर का नहीं।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक त्रिनाथ शुक्ला द्वारा 25/16-ए, जाफ्तिंग रोड, लखनऊ-226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित एवं प्लेट नं.-42, निकट बर्डी नगर,इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, लखनऊ-226008 (उ.प्र.) से मुद्रित।
संपादक- राजेश श्रीनेत, कार्यकारी संपादक- अनिल त्रिगुणायत*
0522-4008111 (कार्यालय), ईमेल-editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-50986/1989 *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा)।





पंखे की खोज

दुनिया का पहला बिजली पंखा अमेरिकी इंजीनियर और आविष्कारक शूयलर स्काट व्हीलर ने 1886 में बनाया था। 1882 में व्हीलर को बिजली की क्षमता का अहसास हुआ। उनके द्वारा विकसित पहले बिजली के पंखे में केवल दो ब्लेड थे, इसमें एक बेहद खतरनाक खुली मोटर का उपयोग किया गया था। ये पंखा तब डायरेक्ट करंट (डीसी) से चलता था। इसे पीतल का बनाया गया था। इसे तब “बज फैन” के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट कार्यालय ने 1885-86 को आधिकारिक तौर पर उनके आविष्कार को मंजूरी दी थी। स्काट व्हीलर का ये पंखा बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ था। जल्द ही अमेरिकी इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी क्रॉकर एंड कर्टिस इसे बेचने लगी थी। इसी तकनीक के आधार पर फिर सीलिंग फैन और कई तरह के फैन बनाए गए थे। वहीं काफी हद तक एयर कंडीशनर का आविष्कार भी इसी पंखे को आधार बनाकर किया गया था। बता दें कि 1890 के दशक में डीसी बिजली सप्लाई की जगह एसी बिजली की सप्लाई घरों में पहुंचने लगी थी। तब ये बिजली के पंखे और कॉमन हो गए थे। 1800 के दशक के अंत से पहले बहुत अधिक गर्म होना एक रोजमर्रा की समस्या थी।

वैज्ञानिक परिचय

शूयलर स्कॉट व्हीलर का जन्म 17 मई 1860 को हुआ। उन्हें आधुनिक इलेक्ट्रिक पंखे के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने पहला व्यावहारिक इलेक्ट्रिक फैन विकसित किया। वे American Institute of Electrical Engineers (AIEE) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो आगे चलकर IEEE बाने। 20 अप्रैल 1923 को व्हीलर का निधन हो गया।



पृथ्वी अपनी रक्षा कैसे करती है और कैसे जीवन के बने रहने के लिए उपर्युक्त अध्ययन बहुत जरूरी हैं, यह हमें मालूम होता है इन अध्ययनों के डाटा का विशलेषण करने से. आमजन को विज्ञान की इन गूढ़ बातों से मतलब नहीं कि आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी को क्या झेलना पड़ता है और कैसे यह अपनी रक्षा करती है। पृथ्वी पर दूरसंचार रेडियो तरंगों से होता है और इसमें पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में घूमने वाले उन्नत उपग्रह लगातार ऐसी घटनाओं पर नजर रखते हैं, जिनके अत्यधिक गतिविधि से यह प्रभावित होकर जीवन को अस्त- व्यस्त कर सकता है। पृथ्वी के सेहत पर नजर रखने के जो भी उपकरण और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी निर्मित की जाती है, उस पर अत्यधिक निवेश की जरूरत होती है।

इसके लिए उन्नत देशों ने अनेक अंतरिक्ष निगरानी संगठन बनाए हुए हुए हैं। डाटा भी शेयर होता है।

रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्पेस रिसर्च के रिसर्चर्स ने अरासे सैटेलाइट से सात साल तक डेटा का एनालिसिस किया और पहली बार पृथ्वी के नए रेडियो एमिशन हेक्टोमीटर कॉन्टिनम के बारे में डिटेल में बताया, जिसे 2017 में खोजा गया था। अरासे, जिसे पहले एक्सप्लोरेशन ऑफ एनर्जीइजेशन एंड रेडिएशन इन जियोस्पेस के नाम से जाना जाता था, वैन एलन बेल्ट्स की स्टडी करने वाला एक साइंटिफिक सैटेलाइट है। इसे जेएक्सएफ या जाक्सा के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस ने डेवलप किया था। पता चला कि यह रेडिएशन सूरज डूबने के कुछ घंटे बाद होता है और सूरज उगने के एक से तीन घंटे बाद गायब हो जाता है। ज्यादातर यह गर्मियों के महीनों में रिकॉर्ड किया गया था, बसंत और पतझड़ में कम। हालांकि, 2022 के बीच तक, जब सूरज बढ़ी हुई एक्टिविटी के फेज में गया, तो रेडिएशन पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन साइंटिस्ट्स का कहना है कि सिग्नल वापस आ सकता है। यह स्टडी जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च: स्पेस फिजिक्स में पब्लिश हुई है। पृथ्वी लगातार रेडियो तरंगें निकाल रही है, जो नैचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हैं जो पृथ्वी के पास के स्पेस से निकलते हैं। उनके एनालिसिस से यह समझने में मदद मिलती है कि सूरज मैग्नेटोस्फीयर पर कैसे असर डालता है - पृथ्वी के चारों ओर का वह एरिया जहां मैग्नेटिक फील्ड इसे बाहरी असर से बचाता है। इस रीजन या क्षेत्र में अलग-अलग तरह के रेडियो एमिशन बनते हैं, और उनमें से एक है हेक्टोमीटर कॉन्टिनम।

यह 600 से 1700 किलोहर्ट्ज़ की रेंज में कमजोर नैचुरल रेडिएशन है, जो आम रेडियो स्टेशनों की ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी से काफी कम है। रेडिएशन के सोसं ग्रह के काफी करीब हैं - लगभग एक या दो पृथ्वी रेडियस की ऊंचाई पर, जहां मैग्नेटिक फील्ड अभी भी चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पृथ्वी पर, ऐसी तरंगों का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आयनोस्फीयर की घनी परतें उन्हें पूरी तरह से सोख लेती हैं, इसलिए माइनिंग और मेटलर्जी कॉम्प्लेक्स को सिर्फ स्पेसक्राफ्ट की मदद से ही देखा जा सकता है।

इस बारे में, हेक्टोमीटर कॉन्टिनम की खोज काफी हाल ही में, 2017 में, जापानी सैटेलाइट अरासे की वजह से हुई थी। उस समय से, सिग्नल कभी-कभी रिकॉर्ड किया गया है, और इसके व्यवहार की कोई पूरी तस्वीर नहीं थी। माइनिंग और मेटलर्जी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज को बताने और इसके शुरू होने के मैकेनिज्म को समझाने के लिए, रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट और हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फिजिक्स फैकल्टी के रिसर्चर्स ने सैटेलाइट से सारा उपलब्ध डेटा इकट्ठा किया और ट्रैक किया कि यह रेडिएशन समय के साथ कैसे बदलता है। ऐसा करने के लिए, उन्होंने सात साल,

2017-2023 के लिए, माइनिंग और मेटलर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लगभग एक हजार एपिसोड का एनालिसिस किया। नतीजों से पता चला कि सिग्नल का दिखना नियर-अर्थ प्लाज्मा में होने वाले प्रोसेस से जुड़ा है - यह एक ऐसा क्षेत्र है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स से भरा होता है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के असर में चलते हैं। लेखकों के अनुसार, हेक्टोमीटर कंटिन्यूअम डबल प्लाज्मा रेजोनेंस के कारण होता है, यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्लाज्मा में दो तरह के ऑसिलेशन एक साथ होते हैं: प्लाज्मा का नेचुरल ऑसिलेशन और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लाइनों के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घूमना। यह को-इंसिडेंस

अस्थिरता पैदा करता है, जिसके कारण प्लाज्मा रेडियो वेव्स निकालता है। इसके लिए खास हालात की जरूरत होती है, जैसे एक खास प्लाज्मा डेंसिटी और ज्यादा एनर्जी वाले गर्म इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी। पता चला कि रेडिएशन सिर्फ रात में होता है और सूरज उगने के एक से तीन घंटे बाद गायब हो जाता है।

साइंटिस्ट इसे इस बात से समझाते हैं कि सूरज का सुबह का रेडिएशन प्लाज्मा की डेंसिटी बढ़ाता है और रेडियो वेव बनने के लिए जरूरी हालात को खत्म कर देता है। सूरज डूबने के बाद, सिग्नल भी

तुरंत नहीं दिखता, बल्कि कुछ घंटों बाद दिखता है, जब आयनोस्फीयर को ठंडा होने औरमाइनिंग और मेटलर्जी कॉम्प्लेक्स के एक्साइटेशन के लिए जरूरी पैरामीटर को ठीक करने का समय मिल जाता है। रोजाना के साइकिल के अलावा, रेडिएशन में मौसमी खासियतें भी होती हैं: यह गर्मियों में ज्यादा रिकॉर्ड होता था, पतझड़ और बसंत में कम। 2022 के बीच से, सिग्नल गायब हो गया है। साइंटिस्ट इसका कारण सूरज का ज्यादा एक्टिव फेज में बदलना मानते हैं: इन महीनों में, इसकी सतह पर ज्यादा धब्बे थे, 10.7 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पर रेडियो एमिशन बढ़ा और अल्ट्रावायलेट लेवल बढ़ा। इस वजह से, प्लाज्मा का स्ट्रक्चर बदल गया, और कंटीन्यूअम बनने के हालात गायब हो गए। जाक्सा, या जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान की सरकारी एजेंसी है जो रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार है।

सन 2003 में बनी जाक्सा को जापान के स्पेस प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए तीन अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन को मिलाकर बनाया गया था। यह कई बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूल बनाना और चांद और एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए मिशन चलाना शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए, आप जाक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

वैज्ञानिक फैक्ट

सर्दियों में जैसे ही तापमान गिरता है, लोगों के मुंह से धुएं जैसी भाप निकलती दिखाई देने लगती है। बचपन में हममें से कई लोग यह देखने की होड़ लगाते थे कि कौन ज्यादा ‘धुआं’ निकाल सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भाप आखिर आती कहां से है और गर्मियों में यह बिल्कुल क्यों नहीं दिखती? आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर यह प्रोसेस क्यों होता है?

हमारे शरीर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है और हमारे फेफड़ों (लंग्स) में जो हवा होती है, वह नमी यानी वॉटर वेपर से भरी होती है। यह हवा हमारे शरीर के तापमान के बराबर गर्म होती है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में ज्यादा नमी अपने अंदर रोक सकती है। यही कारण है कि जब सर्दियों में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर की ठंडी हवा उस गर्म और नम सांस का तापमान बहुत तेजी से गिरा देती है। जैसे ही यह सांस ओरोसॉक (Dew Point) तक पहुंचती है, उसमें मौजूद वॉटर वेपर गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन (Condensation) कहते हैं। इस दौरान बेहद छोटे-छोटे पानी के कण बनते हैं, जो हमें धुएं या कोहरे (फॉग) की तरह दिखाई देते हैं। असल में यह धुआं नहीं, बल्कि पानी की सूक्ष्म बूंदें होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, जब तापमान न्यून डिग्री या उससे नीचे चला जाता है, तो यही भाप जमकर बर्फ के कणों में भी बदल सकती है।



गर्मियों में क्यों नहीं दिखती भाप ?

गर्मियों में वातावरण का तापमान अधिक होता है। ऐसी स्थिति में जब हम सांस छोड़ते हैं, तो बाहर की हवा पहले से ही गर्म होती है और अधिक नमी धारण कर सकती है। इसलिए सांस में मौजूद वॉटर वेपर गैस की अवस्था में ही रहता है और कंडेंसेशन नहीं होता। इसी वजह से गर्मियों में मुंह से भाप दिखाई नहीं देती।

रोचक किरस्सा

भारत के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन (सी. वी. रमन) से जुड़ा एक रोचक और प्रेरक किस्सा उनकी खोजी प्रवृत्ति को बखूबी दर्शाता है। यह किस्सा उस खोज की शुरुआत है, जिसने आगे चलकर उन्हें नोबेल पुरस्कार तक पहुंचाया।

1904 में लॉर्ड रेले को फिजिक्स का नोबेल मिला था। उन्होंने बताया था कि आसमान नीला क्यों दिखता है और समुद्र का नीला रंग आसमान के प्रतिबिंब के कारण है। सन् 1921 में सी. वी. रमन ब्रिटेन समुद्री मार्ग से जा रहे थे। जहाज जब गहरे समुद्र में आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी गहरा नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन रमन को रेले का तर्क संतोषजनक नहीं लगा। उनका वैज्ञानिक मन इस साधारण से दृश्य में भी प्रश्न खोजने लगा कि यदि समुद्र का रंग केवल आकाश का प्रतिबिंब है, तो बादलों के दिनों में भी वह नीला क्यों दिखता है? यही सवाल उनके मन में बस गया। भारत लौटने के बाद

उन्होंने साधारण उपकरणों से प्रकाश और तरल पदार्थों पर प्रयोग शुरू किए। उनके पास अत्याधुनिक प्रयोगशाला नहीं थी,



फिर भी उन्होंने कांच की बोतलों, सूजन की रोशनी और साधारण स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से गहन अध्ययन किया। इन प्रयोगों से उन्होंने सिद्ध किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है, तो उसका कुछ हिस्सा विखरित होकर अपना तरंगदैर्घ्य बदल लेता है।

यही खोज आगे चलकर ‘रमन प्रभाव’ के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रभाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि समुद्र का नीला रंग आकाश का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। इस खोज के लिए सी. वी. रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। यह किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिला पहला नोबेल

पुरस्कार था। यह किस्सा हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक दृष्टि केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होती। एक जिज्ञासु नजर और सवाल पूछने की आदत भी महान खोजों की नींव रखती है।

जंगल की दुनिया

पर्पल फ्रॉग (बैंगनी मेढक) धरती का रहस्यमय जीव

पर्पल फ्रॉग, जिसे हिंदी में बैंगनी मेढक कहा जाता है, प्रकृति के सबसे अद्भुत और रहस्यमय जीवों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम नासिकाबत्रेकस सहायद्रेन्सिस (Nasikabatrachus sahyadrensis) है। यह दुर्लभ प्रजाति केवल भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है, जो अपनी जैव-विविधता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। बैंगनी मेढक का शरीर अन्य मेढकों से बिल्कुल अलग होता है। यह किसी भी सौर मंडल और थ्युथन सुअर की नाक जैसा दिखाई देता है। इसकी आंखें छोटी होती हैं और मुंह संकरा, जिससे यह जमीन के नीचे रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। यह मेढक अपने जीवन का अधिकांश समय भूमिगत बिताता है और आमतौर पर इंसानों की नजरों से दूर रहता है।

पर्पल फ्रॉग की सबसे अनोखी विशेषता इसका जीवन-चक्र है। यह साल में केवल मानसून के कुछ ही दिनों के लिए जमीन के ऊपर आता है। इसी दौरान यह जनजन करता है। नर मेढक की आवाज तेज और अनोखी होती है, जो जमीन के नीचे से भी सुनाई देती है। इसके टेडपोल चट्टानों से चिपककर बहते पानी में विकसित होते हैं, जो इसे अन्य प्रजातियों से



अलग बनाता है। इसका मुख्य भोजन दीमक और छोटे कीड़े होते हैं, जिन्हें यह अपनी लंबी, चिपचिपी जीभ से पकड़ता है। जंगलों में रहने वाली इडुकी इन्हें कई पीढ़ियों से जानते और समझते हैं। माना जाता है कि इन जीवों का प्राचीन वंश लगभग 12 करोड़ वर्षों से स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहा है, और इन्होंने नए महाद्वीपों के निर्माण, महान डायनासोर के विनाश, हिमयुग और मनुष्यों के प्रमुख प्रजाति बनने जैसी घटनाओं को जीवित रहते हुए देखा है। वैज्ञानिकों के लिए यह गोंडवानालैंड नामक महाद्वीप के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण जैविक प्रमाण है।

आज पर्पल फ्रॉग संकटग्रस्त (Endangered) प्रजातियों की सूची में शामिल है। जंगलों की कटाई, सड़क निर्माण और मानवीय गतिविधियों के कारण इसका प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहा है। ऐसे में इस अनोखे जीव का संरक्षण न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी प्राकृतिक धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी भी है।

वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र होगा धूमकेतु-3 आई एटलस

इस पूरे वर्ष बहुचर्चित धूमकेतु–3 आई एटलस वैज्ञानिकों के आकर्षण के केंद्र में रहेगा। दूसरी दुनिया से आए इस धूमकेतु की कौमा जैसी पूंछ का रंग अब हरा हो चला है। चौड़ाई में आकार 6 किमी तक है। यह एक असामान्य सक्रिय धूमकेतु है, जिसकी सतह पर संभवतः बर्फ के ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। यह जानकारी नासा की हबल अंतरिक्ष दूरबीन के जरिए सामने आई है।



बबलू चंद्रा
नैनीताल



अंतरिक्ष में धूमकेतुओं का अपना अलग रोमांच है और वह धूमकेतु तब और भी रोमांच पैदा कर देता है, जब वह हमारे सौर मंडल का न होकर किसी दूसरी दुनिया से आया हो। यही वह मौका है, जो किसी दूसरे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर कर सकता है। जिस कारण नासा और ईसा जैसी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां गंभीरता से इसके ऑब्जर्वेशन में जुटी हुई हैं। अभी तक हुए अध्ययन के बाद इस धूमकेतु के बारे में कुछ नई जानकारीयां सामने आ सकी हैं, जिससे पता चलता है कि इसका धूल भरा कौमा यानी पूंछ अब लाल रंग से हरे रंग में तब्दील हो चुकी है। चौड़ाई में इसका आकार 440 मीटर से 6 किमी के बीच होने का अनुमान वैज्ञानिकों ने जताया है।

बहरहाल इसके आकार की सही जानकारी मिलनी अभी बाकी है। इसके रंग बदलने का कारण द्विपरमाण्विक कार्बन का उत्सर्जन माना जा रहा है। इस धूमकेतु की सतह

में हलचल यानी सक्रियता अधिक हो रही हैं, जिस कारण इसे असामान्य माना जा रहा है। इसकी सतह पर बर्फ के ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, इसके संकेत वैज्ञानिकों को मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धूमकेतु इस वर्ष जून तक जमीनी दूरबीनों से देखा जा सकेगा। इसके बाद साल के अंत में पुनः पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों से देखा जा सकता है। इस बीच अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल से इस पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह पर मौजूद दूरबीन जूसी भी इसकी निगरानी करेगा और इसकी तस्वीरें हम तक भेजेगा। वर्तमान में यह धुंधला ही नजर आ रहा है। जिस कारण साधारण दूरबीनों से देख पाना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धूमकेतु के अध्ययन के लिए पूरा साल है, जो किसी दूसरी दुनिया के सौर मंडल की जानकारी दे जाएगा।

धूमकेतुओं से पता चलता है सौर मंडल की वास्तविकता

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक डॉ. शशिभूषण पांडे के अनुसार धूमकेतुओं से सौर मंडल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह किसी भी सौर मंडल के निर्माण के अवशेष होते हैं। जिस कारण सौर मंडल की आयु और वहां मौजूद पिंडों का पता लगाया जा सकता है, जिससे धूमकेतु-3 आई एटलस का महत्व बढ़ जाता है, जो किसी दूसरे सौर मंडल के बारे में जानकारी दे सकता है।



बिजनेस झीफ

भाडला परियोजना से

वाणिज्यिक आपूर्ति शुरू

नई दिल्ली । एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने राजस्थान में अपनी 500 मेगावाट की भाडला सौर परियोजना से 13 जनवरी से 300 मेगावाट बिजली की वाणिज्यिक आपूर्ति शुरू कर दी। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी की अनुष्णगी की अनुष्णगी कंपनी है। एनटीपीसी ने शेयर बाजार को बताया कि एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित एवं व्यावसायिक क्षमता क्रमशः 87,287 मेगावाट और 86,207 मेगावाट हो गई। एनटीपीसी ने राजस्थान स्थित 300 मेगावाट की भाडला सोलर पीवी परियोजना के पहले हिस्से की 300 मेगावाट क्षमता के लिए वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) की घोषणा की है।

साउथ इंडियन बैंक

का लाभ 9% बढ़ा

नई दिल्ली । निजी क्षेत्र के साउथ इंडियन बैंक का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 9.3% बढ़कर 374 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले यह 342 करोड़ रुपये था। केरल स्थित बैंक ने गुरुवार को शेयर बाजार को इसकी सूचना दी। कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 3,003 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले 2,780 करोड़ रुपये थी। आलोच्य तिमाही में बैंक की ब्याज आय भी बढ़कर 2,518 करोड़ रुपये हो गई, जो गत वित्त वर्ष 2,379 करोड़ रुपये थी। बैंक का परिचालन लाभ भी सुघरकर 584 करोड़ हो गया जबकि दिसंबर 2024 में यह 529 करोड़ रुपये था।

सोनी का राजस्व 2.4% बढ़कर 7,851 करोड़ पर

नई दिल्ली । उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता कंपनी सोनी इंडिया की परिचालन आय वित्त वर्ष 2024–25 में 2.44% बढ़कर 7,851.08 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2024–25 में उसका कुल लाभ 6% घटकर 157.03 करोड़ रुपये रहा। टोपलर के माध्यम से हासिल वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इसकी कुल आय 2.45% बढ़कर 7,917.54 करोड़ रुपये हो गई। बाजार विश्लेषक कंपनी टोपलर व्यवसायों के वित्तीय, जोखिम पूर्व कॉरपोरेट का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। जापानी कंपनी सोनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सोनी इंडिया ने 2023–24 में 166.99 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

फर्जी इनपुट टैक्स

क्रेडिट में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली । केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की कर-चोरी रोधी इकाई ने 199.9 करोड़ के कर्जा बिल जारी कर अवैध तरीके से 8.52 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आर्टीसीटी) हासिल करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सीजीएसटी दक्षिण दिल्ली के आगुप्त कार्यालय ने 12–13 जनवरी, 2026 को व्यवसाय के मुख्य स्थानों, अतिरिक्त ठिकानों और आवासों पर छापेमारी की थी। मंत्रालय ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति यानी प्रोपराइटर और उनके पिता, इस कर चोरी के सीधे लाभार्थी हैं।

वंदे भारत स्लीपर के लिए

झांसी से आपूर्ति शुरू

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने अपने झांसी कारखाने से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परियोजना के लिए अंडरस्लंग ट्रेडेशन ट्रांस्फार्मर की आपूर्ति शुरू कर दी है। बीएचईएल ने गुरुवार को कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परियोजना के लिए इन ट्रांस्फार्मर की आपूर्ति मेक इन इंडिया पहल की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन परियोजना का क्रियान्वयन बीएचईएल के नेतृत्व वाले समूह द्वारा किया जा रहा है।

एमएसएमई के लिए योजनाओं को जोड़ें

नई दिल्ली, एजेंसी

नीति आयोग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने को गुरुवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं को एक साथ जोड़ने की सिफारिश की। आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए और विकास योजनाओं एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बेहतर समन्वय भी स्थापित किया जाए।

रिपोर्ट में एमएसएमई इकाइयों का बाजार के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए विशेष मार्केटिंग प्रकोष्ठ बनाने का सुझाव भी दिया गया है। इस प्रकोष्ठ की धरेलू विपणन इकाई व्यापार मेलों, प्रदर्शनों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाएगी, जबकि विदेशी विपणन इकाई वैश्विक बाजार तक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में समर्थन देगी। साथ ही नीति आयोग ने ग्रामीण और कृषि-आधारित

नई दिल्ली। आरएम ड्रिप एंड सिंक्रनर सिस्टम्स के निदेशक मंडल ने महाराष्ट्र के नासिक में 12,000 टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता वाली नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि नई इकाई की स्थापना प्रस्तावित पूर्ण स्वामित्व वाली अनुष्णगी कंपनी ब्रह्मानंद पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिन्नर में होगी। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में 50% की वृद्धि होगी।

भारत, अमेरिका व्यापार समझौते के करीब

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल बोले- दोनों देशों के वार्ताकार सभी लंबित मुद्दों पर कर रहे चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं और दोनों पक्षों के तैयार होने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के वार्ताकार दल व्यापार समझौते के लगभग सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यह पूरा होने के करीब है, लेकिन हम कोई समय-सीमा नहीं दे सकते हैं। यह तब होगा जब दोनों पक्ष तैयार होंगे और यह महसूस करेंगे कि घोषणा का सही समय है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत कभी नहीं टूटी थी और दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। सितंबर में भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 50% तक का भारी शुल्क लगाने के बाद व्यापार समझौते पर बातचीत कुछ समय के लिए सूस्त पड़ गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में



● **बोले- भारत-अमेरिका में बातचीत कभी नहीं टूटी और दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे से जुड़े रहे**

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। यह बैठक 10-11 दिसंबर को अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्ज़र के नेतृत्व में आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद हुई। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने 12 जनवरी को कहा था कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हैं।

गोर ने कहा था, असली मित्रों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन

अमृत विचार

लखनऊ, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

www.amritvichar.com

भारत, यूरोपीय संघ एफटीए पर बातचीत पूरी करने के नजदीक

भारत, यूरोपीय संघ एफटीए पर बातचीत पूरी करने के नजदीक

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत पूरी करने के बहुत करीब हैं। कुछ बचे मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है ताकि इस महीने के आखिर में शीर्ष नेतृत्व की यात्रा के समय समझौता, घोषणा के लिए तैयार हो सके। वाणिज्य सचिव, राजेश अग्रवाल ने कहा कि संवेदनशील कृषि से जुड़े मुद्दों को भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है। हमने 24 में से 20 अध्याय पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत चल रही है। हम डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेताओं की बैठक से पहले इस काम को कैसा पूरा किया जा सकता है। जिन मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है उनमें यूरोपीय संघ का कार्बन कर भी शामिल है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और 25–27 जनवरी तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। ये 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य

आखिर में हमेशा उन्हें सुलझा लेते हैं। साथ ही अग्रवाल ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार की सकारात्मक वृद्धि पर संतोष जताया। व्यापार समझौता संपन्न न हो पाने की किसी संभावना पर उन्होंने

बेरोजगारी दर 4.8%

शहरी क्षेत्रों में बढ़ी

बेरोजगारी दर 4.8%

शहरी क्षेत्रों में बढ़ी

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

बेरोजगारी दर 4.8%

वर्ल्ड व्रीफ

थाईलैंड में अब हाईवे पर गिरी क्रेन, दो की मौत, पांच घायल

बैंकों।मध्य थाईलैंड के एक व्यस्त राजमार्ग पर एक निर्माण क्रेन के हिस्से गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि बैंकों से 17 मील दूर समुत सखोन प्रांत में किंग रामा द्वितीय राजमार्ग पर एक पुलिवेटेड टोल रोड परियोजना पर काम कर रही एक निर्माण क्रेन के कुछ हिस्से सड़क पर गिर गए, जिससे वहां से गुजर रही दो कारें टकरा गईं। राजा राम द्वितीय राजमार्ग पर निर्माण सामग्री के सड़क पर गिराया गया कि घटनाएं पहले भी हुई हैं, जिससे लोग हताहत हुए हैं। इससे पहले 14 जनवरी को थाई प्रांत नाखोन रत्चसिममा में पटरियों पर गिरी एक निर्माण क्रेन से यात्री ट्रेन टकराने से 32 लोगों की मौत हो गई थी और 64 घायल हो गए थे। तीन लोग लापता हैं।

न्यू जर्सी: अपने दो बेटों की हत्या की आरोपी भारतीय महिला गिरफ्तार
न्यूयॉर्क। न्यू जर्सी में भारतीय मूल की 35 वर्षीय महिला को अपने दो नाबालिग बेटों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोमरसेट काउंटी के अभियोजक जॉन मैकडोनाल्ड ने बताया कि 13 जनवरी को शाम लगभग 6.45 बजे एक व्यक्ति ने आपातकालीन नंबर 911 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इस व्यक्ति को बच्चों का पिता माना जा रहा है। उसने बताया कि काम से घर लौटने पर उसने अपने पांच और सात वर्षीय दो बेटों को बेहोश पाया। उसने कहा, मेरी पत्नी ने उनके साथ कुछ किया है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने घर के एक कमरे में दोनों बच्चे मृत अवस्था में मिले। नटराजन को हत्या और गैरकानूनी उद्देश्य के लिए हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अमेरिका ने कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर को जब्त किया
वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर को जत्त कर लिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस टैंकर का संबंध वेनेजुएला से है। माना जा रहा है कि यह लातिन अमेरिकी देश के तेल भंडार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अमेरिका द्वारा की जा रही कोशिशों का हिस्सा है। अमेरिका की गृह मंत्री क्रिस्टी नोपम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, मोटर टैंकर वेरोनिगा पहले वेनेजुएला के जलक्षेत्र से गुजर चुका था, और अब कैरेबियन में प्रतिबंधित जहाजों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा निर्धारित क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था।

अंतरिक्ष यात्री के बीमार पड़ने से अधूरा खत्म हुआ मिशन

केप केनवरल, एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से एक बीमार अंतरिक्ष यात्री बृहस्पतिवार को तीन और साथियों के साथ पृथ्वी पर लौट आया। अंतरिक्ष स्टेशन का इन लोगों का मिशन एक महीने से अधिक समय पहले ही खत्म हो गया। स्वास्थ्य कारणों को लेकर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन से वापस धरती पर लाने का नासा का यह पहला अभियान था।

इन अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने के 11 घंटे बाद स्पेसएक्स ने कैस्पूल को सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में आधी रात को सफलतापूर्वक उतारा। अगस्त में शुरू हुए इस मिशन का यह अप्रत्याशित अंत था, जिसके बाद आईएसएस में केवल एक अमेरिकी और दो रूसी ही शेष रह गए हैं। नासा और स्पेसएक्स ने कहा कि वे चार सदस्यीय एप दल को

पर्यटन और अस्थाई वीजा पर रोक नहीं लगाएगा अमेरिका

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत उच्च-जोखिम वाले 75 देशों के लोगों के लिए प्रवासी वीजा पर लगाई गई ताजा रोक पर्यटक या वर्क वीजा पर लागू नहीं होगी और इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिका में स्थाई रूप से रहना चाहते हैं।

अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, इराक और रूस सहित 75 देशों के नागरिकों के लिए प्रवासी वीजा जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की बुधवार को घोषणा की थी। उसने कहा कि इन देशों से आने वाले प्रवासी अमेरिकी लोगों की कल्याणकारी योजनाओं का अस्थीकार्य दरों पर लाभ लेते हैं। प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती

●**उच्चजोखिम वाले 75 देशों पर सिर्फ प्रवासी वीजा पर रहेगी पाबंदी**

के तहत उठाया गया यह ताजा कदम उन विदेशियों के प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए है जिनके अमेरिका में रहते हुए सार्वजनिक लाभों पर निर्भर रहने की आशंका है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकियों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। विदेश मंत्रालय सभी नीतियों, विनियमों की पूर्ण समीक्षा कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च-जोखिम वाले इन देशों से आने वाले प्रवासी अमेरिका में कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग न करें।

ट्रंप की मनमानी से बदले हालात

डेनमार्क के स्वामित्व वाले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कब्जा करने की घोषणा ने नाटो के भीतर गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन यानी नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं जो एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। अमेरिका इसका सबसे बड़ा विततीय और सैन्य योगदानकर्ता है। इस संगठन का मुख्य सिद्धांत सामूहिक रक्षा है। यानी यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे पूरे समूह पर हमला माना जाता है और सभी सदस्य देश मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। अब नाटो देशों की एकता खतरे में पड़ गई है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए अत्यावश्यक बताया है।

नाटो सदस्य देशों में दार



ट्रंप की घोषणा पर प्रतिक्रिया

- नाटो सदस्य डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका जबर्न ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो यह नाटो का अंत हो सकता है।
- जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे जैसे नाटो सदस्यों ने डेनमार्क के समर्थन में ग्रीनलैंड में अपने सैनिक और सैन्य अभ्यास भेजने का फैसला किया है।
- नाटो के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है जब उसके सदस्य देशों ने ही एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होने की तैयारी शुरू कर दी है।
- ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण से नाटो और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन इसे मित्र देश की संप्रभुता पर हमला माना जा रहा है।

रूस ने जासूसी कर रहे ब्रिटिश राजनयिक को निष्कासित किया

●**ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से संबंध स्थापित होने के बाद उठाया कदम**

मॉस्को। रूस ने जासूसी के आरोपों की वजह से मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास में कार्यरत एक राजनयिक को बृहस्पतिवार को निष्कासित कर दिया। रूस की ओर से यह कदम रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी की ओर से दूतावास में कार्यरत इस अधिकारी का संबंध ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से स्थापित करने के बाद उठाया गया।

संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने कहा कि मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास में सचिव के पद पर कार्यरत गैरैथ सैमुअल डेविस ब्रिटेन की गुप्त सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश दूतावास की प्रभारी डेने डोलकिया को औपचारिक विरोध दर्ज कराने और संदिग्ध जासूस को दो सप्ताह के भीतर देश छोड़ने के आदेश से अवगत कराने के लिए तलब किया था।

रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मॉस्को रूसी धरती पर ब्रिटिश विशेष सेवाओं के अघोषित एजेंटों की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कहा गया है कि रूसी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति अपनाती है।

वेनेजुएला पर और हमले से ट्रंप को रोकने को लाया गया विधेयक गिरा

वाशिंगटन, एजेंसी

वेनेजुएला पर और हमले करने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्षमता को सीमित करने वाले युद्ध अपराध से संबंधित एक प्रस्ताव को रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने बुधवार को सीनेट में खारिज करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि पार्टी के दो सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन से अपना रुख पलट लिया।

ट्रंप ने उन पांच रिपब्लिकन सीनेटरों पर भारी दबाव डाला था जिन्होंने पिछले सप्ताह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और अंततः बृह विधेयक को पारित होने से रोकने में सफल रहे। इन पांच रिपब्लिकन

नाटो देशों का आपसी सहयोग

- बजट और संसाधन साझा करना प्रमुख है, नाटो सदस्यों ने 2026 के लिए 2.42 बिलियन यूरो के साझा सैन्य बजट और 528.2 मिलियन यूरो के नागरिक बजट पर सहमति जताई है।
- आधुनिक खतरों से निपटने के लिए एक डेटा-केंद्रित संगठन बनने की रणनीति अपनाई है। 2026 में साइबर लचीलापन बढ़ाने और साझा डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर साथ काम कर रहे हैं।
- सामूहिक रक्षा और अनुच्छेद 5 नाटो सदस्य देशों के बीच सहयोग का सबसे बड़ा आधार है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।
- नाटो देशों ने रूस से यूक्रेन की रक्षा के लिए अभूतपूर्व सहयोग दिखाया है। वर्ष 2026 के लिए यूक्रेन को 45 से 60 बिलियन डॉलर तक की सैन्य सहायता देने का संकल्प लिया है।

क्या हैं आशंकाएं

- यूरोपीय देश स्वतंत्र सैन्य शक्ति और रक्षा प्रणाली बनाने पर जोर देंगे। नाटो के बजाय यूरोपीय सेना का विचार जन्म ले रहा है।
- अमेरिका का यूरोप व अटलांटिक क्षेत्र पर नियंत्रण कम होगा, बहुदुवीय विश्व व्यवस्था में चीन-रूस अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं।
- नाटो कमजोर होने से देश द्विपक्षीय या छोटे क्षेत्रीय गुटों की ओर बढ़ सकते हैं। वैश्विक सुरक्षा ढांचा जटिल व अस्थिर हो जाएगा।
- कई यूरोपीय देश परमाणु हथियार विकसित करने पर विचार कर सकते हैं, जो वैश्विक अप्रसार प्रयासों के लिए बाड़ झटका होगा।

रूस-चीन के लिए अवसर

- नाटो की एकता कम होने से रूस को पूर्वी यूरोप में प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा, यूक्रेन और बाल्टिक देशों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ जाएगा।
- चीन आर्थिक और कूटनीतिक रूप से यूरोपीय देशों को आकर्षित करने की कोशिश करेगा, ताकि अमेरिका को अलग-थलग किया जा सके।
- ट्रंप का दावा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन उस पर कब्जा कर लेंगे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसे खारिज कर दिया है।

●**एक्स ने प्रौद्योगिकी उपाय लागू किए, सभी यूजर्स आगे दायरे में**

●**एक्स ने प्रौद्योगिकी उपाय लागू किए, सभी यूजर्स आगे दायरे में**

सभी के लिए सुरक्षित मंच बनाने का वादा
‘एक्स’ ने स्पष्ट किया कि इससे उसके मौजूदा सुरक्षा नियमों में कोई बदलाव नहीं आएगा जिसके तहत ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए सभी ‘एआई प्रॉम्ट’ और ‘जेनरेटेड कंटेंट’ को उसके निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कंटेंट वाहे जिस तरह तैयार किया जाए, यूजर सशुल्क ग्राहक हो या मुफ्त सेवा लेने वाला, हमारा सुरक्षा दल अवैध सामग्री को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने, जरूरत पड़ने पर खतों को स्थाई रूप से निलंबित करने और स्थानीय सरकारों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए चौकीसी घंटे काम कर रहे हैं। वह सभी के लिए सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल यौन शोषण, बिना सहमति के नग्नता एवं अवांछित यौन सामग्री को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

के लिए उसने प्रौद्योगिकी उपाय लागू किए हैं।

यूक्रेन में ऊर्जा क्षेत्र में आपातकाल लागू कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लाडिमिर जेलेंस्की ने रूसी हमलों और खराब मौसम की वजह से देश के ऊर्जा क्षेत्र सेक्टर में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है।

जेलेंस्की ने बुधवार को टेलीग्राम पर कहा कि इस कदम का मकसद बैंकअप पावर इक्विपमेंट को बिजली नेटवर्क से जोड़ने से जुड़ी औपचारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बिजली आपात बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार बहुत ज्यादा टंड में निपेधाज्ञा नियमों की समीक्षा करेगी और शिक्षा प्रक्रिया के तरीकों पर विचार करेगी। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेसा और मध्य यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में ऊर्जा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।

●**अपनी तरह के पहले मामले में नासा की टीम ने पृथ्वी पर की आपात वापसी**



●**अपनी तरह के पहले मामले में नासा की टीम ने पृथ्वी पर की आपात वापसी**

अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नासा की जेना कार्डमैन और माइक फिंके के साथ जापान के किमिया युइ और रूस के ओलेग प्लाटोनोव भी वापस आए। अधिकारियों ने गोपनीयता का हवाला देते हुए बीमार अंतरिक्ष यात्री की पहचान या घटना के बारे में विस्तार से बताने से इन्कार कर दिया। कक्षा में अंतरिक्ष यात्री की हालत स्थिर थी लेकिन नासा उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए पृथ्वी पर वापस लाना चाहता था।

डेनमार्क के विदेशमंत्री ने कहा- ग्रीनलैंड के मुद्दे पर हम अमेरिका से असहमत

वाशिंगटन। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत के बाद भी ग्रीनलैंड को लेकर बुनियादी असहमति बनी हुई है। हालांकि दोनों पक्ष मतभेदों को दूर करने के तरीकों पर चर्चाकरने के लिए एक कार्यसमूह बनाने पर सहमत हो गए हैं।

ट्रंप लगातार डेनमार्क के आर्कटिक क्षेत्र ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कह रहे हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री लास लोके रासमुसेन ने वेंस और रूबियो के साथ चर्चा के बाद कहा, ग्रीनलैंड के आसपास की मौजूदा स्थिति पर हमारा दृष्टिकोण अमेरिका के सार्वजनिक बयानों से भिन्न है, लेकिन दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में हम चिंताओं को साझा करते हैं। मौलिक मतभेदों के बावजूद डेनमार्क और ग्रीनलैंड अमेरिका से संवाद जारी रखेंगे। रासमुसेन ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने एक उच्च स्तरीय कार्य समूह बनाने का फैसला किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हम आगे बढ़ने का एक साझा रास्ता खोज सकते हैं।



तुला



वृश्चिक



धनु



मकर



कुम्भ



मीन

आज छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के साधनों पर धन खर्च करेंगे। नई जाँब मिलने के योग बन रहे हैं। रुढ़िवादी विचारों से बचे। नए व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का वातावरण रहेगा।

आज धन के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। बच्चों की सेहत की चिंता हो सकती है। जिम्मेदारियों के बीच स्वयं के लिए समय अवश्य निकालें। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बोलचाल के दौरान सभ्य भाषाशैली का प्रयोग करें।

आज अपनी कार्यशैली में बदलाव ला सकते हैं। व्यवसाय में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगे रहेंगे। विद्वान लोगों के साथ आपके संपर्क मजबूत होंगे। परिवार को लेकर आप कुछ योजना बना सकते हैं। घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा।

आज व्यवसाय में प्रलोभनों से बचें। भूतकाल की बातों को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए। बुरी संगत के कारण आपको नुकसान हो सकता है। अधीनस्थ कर्मचारियों से अपने संबंध अच्छे रखें।

आज आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। सुख के साधनों पर आप धन खर्च करेंगे। युवा प्रेम संबंधों को लेकर अत्यंत भावुक हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होने की संभावना है। परिजनों के प्रति थोड़ा चिंतित रहेंगे।

आज सरकारी जाँब कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके मस्तिक में नए रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। विदेश से नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी।

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

	2	7	5	4	
		1		8	
9		3	8	5	6
		6	2		3
4		8	1	7	
5			9	1	
6	1		5	8	9
	7			4	
4		7	3	2	

सुडोकू - 32 का हल					
8	7	4	9	5	1
6	5	2	4	3	8
3	9	1	6	7	2
5	1	7	8	4	9
9	8	3	5	2	6
4	2	6	3	1	7
7	4	8	1	9	5
2	6	5	7	8	3
1	3	9	2	6	4

हार्इलाइट

कर्नाटक को हराकर विदर्भ विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में बैंगलुरु। दर्शन नालकंडे (पांच विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद अमन मोखाड़े (138) की शतकीय तथा रविकुमार समर्थ (नाबाद 76) रनों अधंशतकीय पारी की बदौलत विदर्भ ने गुरुवारी को कर्नाटक को 22 गेंदें शेष रहत छह विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। 281 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विदर्भ की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने चौथे ही ओवर में अर्थव तायड़े (छह) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद अमन मोखाड़े और ध्रुव शोरी की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 98 रन जोड़े। 24वें ओवर में अभिलाष शेठ्टी ने ध्रुव शोरी (47) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद रविकुमार समर्थ के साथ अमन मोखाड़े ने तीसरे विकेट के लिए 147 रन जोड़े। इस दौरान मोखाड़े ने अपना शतक भी पूरा किया। 42वें ओवर में तीसरे विकेट के रूप अमन मोखाड़े को विद्याधर ने आउट किया।

स्टार्क और वोल्वार्ट प्लेयर ऑफ द मंथ बने दुबई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने पुरुषों और महिलाओं के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, शानदार प्रदर्शन की एक सीरीज के बाद जिसमें उन्होंने कड़ी टक्कर को पीछे छोड़ा। स्टार्क, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से एशेज जीत में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था, ने दिसंबर में 21.25 की औसत से 16 विकेट लिए, साथ ही महीने के दौरान तीन टेस्ट में 139 रन भी बनाए। सबसे शानदार प्रदर्शन ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का था, जहां उन्होंने आठ विकेट लिए और महत्वपूर्ण 77 रन बनाए।

एमेलिया वाल्वरडे महिला टीम से जुड़ेंगी कोलकाता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के सुर्खों के अनुसार कोस्टा रिका की पूर्व विश्व कप कोच एमेलिया वाल्वरडे आगामी एएफसी महिला एशियाई कप के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम में मेंटोर के तौर पर जुड़ने वाली हैं। एआईएफएफ 39 वर्षीय वाल्वरडे के साथ अनुभव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। वह 2015 और 2023 फीफा महिला विश्व कप में कोस्टा रिका की मुख्य कोच थीं।

नई दिल्ली, एजेंसी

पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें इस बात पर काफी हैरानी हुई कि राजकोट में दूसरे एकदिवसीय में न्यूजीलैंड ने भारत को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। इसके साथ ही रविवार को तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान टीम को अपने संयोजन के साथ प्रयोग करने की आजादी नहीं होगी। डेरिल मिचेल की नाबाद 131 रन की पारी

से न्यूजीलैंड ने राजकोट में दूसरे एकदिवसीय में 285 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट की जीत के साथ श्रृंखला 1-1 से बराबर कर दी। श्रृंखला का निर्णायक मैच इंदौर में खेला जाएगा।

गावस्कर ने कहा मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि न्यूजीलैंड इतनी आसानी से जीत गया क्योंकि उनके बल्लेबाजी शुरू करने से पहले सभी को लगा था कि भारत पिच की धीमी गति का फायदा उठा पाएगा। उन्होंने कहा सिर्फ स्पिनरों ने ही नहीं बल्कि उनके (न्यूजीलैंड के) सभी गेंदबाजों ने पिच की धीमी गति का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। ऐसा लगा कि भारत न्यूजीलैंड को लगभग

धूल भरी पिचों पर तैयारी करने से मुझे रणनीति बनाने में मदद मिली : मिचेल राजकोट। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने कहा कि लिंकन में न्यूजीलैंड क्रिकेट की खास तौर पर तैयार की गई धूल भरी पिच में तैयारी करने से उन्हें उपमहाद्वीप की स्पिन की अनुकूल पिचों पर खेलने में महारत हासिल करने में मदद मिली। एकदिवसीय बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में बल्लेबाज विराट कोहली से सिर्फ एक रैंटिंग अंक पीछे चल रहे मिचेल ने भारत के खिलाफ उसकी सरजमीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पिछले चार मैच में 130, 134, 84 और नाबाद 131 रन बनाए हैं। बीतीस साल के मिचेल ने बुधवार को यहां 117 गेंद में नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड की सात विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई जिससे टीम ने तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।

260 या 270 रन पर रोक पाएगा। मुझे लगा था कि यह भारत के लिए एक आसान जीत होगी। गावस्कर ने मिचेल की भी सराहना की जिन्होंने विल यंग (87) के साथ 162 रन

की साझेदारी करके मेहमान टीम की जीत सुनिश्चित की। गावस्कर ने कहा कि श्रृंखला के निर्णायक मैच में भारत पर दबाव होगा और टीम के पास यशस्वी जायसवाल जैसे किसी

खिलाड़ी को आजमाने की गुंजाइश नहीं है जिन्हें राजकोट में श्रृंखला जीतने की स्थिति में इंदौर में मौका दिया जा सकता था। उन्होंने कहा अगर वे (भारत) यह मैच जीत जाते तो उन्हें थोड़ा प्रयोग करने की आजादी होती। शायद उन खिलाड़ियों को मौका देते जो अब तक नहीं खेले हैं। जायसवाल जैसे किसी खिलाड़ी को भी थोड़ा मौका मिल सकता था। गावस्कर ने कहा यह सब संभव हो सकता था लेकिन अब वे कोई जोखिम नहीं ले सकते। उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश के साथ खेलना होगा। न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी साइमन डूल ने मिचेल की पारी

और उन्होंने जिस तरह से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की भारतीय स्पिन जोड़ी का सामना किया उसकी तारीफ की। कुलदीप ने अपने 10 ओवर में 82 रन दिए और सिर्फ एक विकेट ले पाए तो वहीं जडेजा ने आठ ओवर में बिना कोई विकेट लिए 44 रन दिए। डूल ने कहा मिचेल के भारत के खिलाफ बहुत अच्छे आंकड़े हैं... हम इसे बार-बार देखते हैं, रिवर्स स्वीप, अपने पैरों का इस्तेमाल करना। कुलदीप के खिलाफ बहुत जल्द वह आगे बढ़कर खेले और पहले ही ओवर में उन पर दबाव डाला। उस पल से कुलदीप ने अपनी लय खो दी जो अक्सर नहीं होता है।

अंडर-19 विश्व कप में हेनिल पटेल ने भारत को दिलाई विजयी शुरुआत

बारिश से प्रभावित मैच में अमेरिका को छह विकेट से हराया

बुलावायो (जिम्बाब्वे), एजेंसी

हेनिल पटेल।

● धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी महज दो रन बनाकर हुए आउट

अपिण्डी (पांच ओवर में 24 रन देकर दो विकेट) ने बोल्ड कर दिया। अपिण्डी की लेंथ गेंद पर सूर्यवंशी विकेट से आगे आए और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनार से लगकर स्टंप्स पर जा लगी। कप्तान आयुष म्हात्रे दो चौके लगाकर आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे लेकिन तभी बारिश ने एक और रुकावट डाल दी। इस समय भारत को 46 ओवर में सिर्फ 87 रन चाहिए थे। लेकिन लंबे समय तक खेल रुकने के बाद जब फिर शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार समीकरण बदल गया। खेल शुरू होने पर भारत ने म्हात्रे (19) और वेदांत त्रिवेदी (02) के विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिए। फिर उप-कप्तान विहान मल्होत्रा 18 रन पर आउट हो गए। इससे पहले हेनिल ने अपने पहले ही ओवर में अमरिंदर गिल को रिल्टप में विहान मल्होत्रा के हाथों कैच करवाकर पहला विकेट लिया जिसके बाद तेज गेंदबाज दीपेश देवेदन ने साहिल गंग (16) को थर्ड मैन पर हेनिल के हाथों कैच करवाकर अमेरिका का स्कोर नौ

ओवर में दो विकेट पर 29 रन कर दिया। इसके बाद हेनिल ने लगातार दो विकेट लेकर पारी पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव को खाता भी नहीं खोलने दिया जो पांच गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए। हेनिल ने इसी ओवर में विकेटकीपर अर्जुन महेश (16) को भी आउट कर दिया जिससे अमेरिका का स्कोर चार विकेट पर 35 रन हो गया। अमेरिका इन झटकों से उबर नहीं पाया। लेग स्पिनर खिलन पटेल ने आते ही विकेट झटक लिया, उन्होंने अमोघ अरेपल्ली को आउट किया जिससे अमेरिका ने 16वें ओवर में 39 रन पर अपना पांचवां विकेट गंवाया। नीतीश सुदिनी हालांकि कुछ देर टिककर खेले, उन्होंने 52 गेंद में 36 रन बनाए जिसमें चार चौके शामिल थे। उन्होंने अदनीत झाम (18) के साथ छठे विकेट के लिए 30 रन जोड़े जिससे अमेरिका का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा। हेनिल ने फिर पुछल्ले बल्लेबाजों को समेटा। उन्होंने सबरीश प्रसाद (07) और ऋषभ शिंपी (00) को आउट करके अपने पांच विकेट पूरे किए। अमेरिका की टीम 35.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारत ग्रुप बी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है।

लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में, श्रीकांत व प्रणय बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी

लक्ष्य सेन।

एजेंसी

इंडिया ओपन

आयोजित किया जा रहा है। सेन ने निशिमोटो को 21-19, 21-11 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि श्रीकांत फ्रांस के वर्ल्ड टूर फाइनल्स विजेता क्रिस्टो पोपोव से 21-14, 17-21, 21-17 से हार गए, और प्रणय सिंगापुर के आठवें वरीयता प्राप्त लोह कीन यू से 18-21, 21-19, 21-14 से हार गए। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती खत्म हो गई, जब चीनी पांचवीं वरीयता प्राप्त

हान यू ने मालविका बंसोड़ को 21-18, 21-15 से हरा दिया। निशिमोटो के खिलाफ पहले गेम के शुरुआती चरणों में सेन के लिए भी राह मुश्किल थी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी अपनी लय और स्ट्रोक की लंबाई खोजने में संघर्ष कर रहा था। इंडियन ऑयल के कर्मचारी पहले गेम में जापानी खिलाड़ी से 11-16 और फिर 14-18 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को लंबी रैलियों में उलझाए रखा और रोकने के लिए कुछ शानदार डिफेंसिव स्ट्रोक लगाए।

ऑस्ट्रेलियन ओपन

रविवार से शुरू हो रहा वर्ष का पहला ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट, इतिहास में दर्ज हो सकता है दोनों का मुकाबला

कोको गॉफ और वीनस विलियम्स भिड़ सकतीं दूसरे दौर में

मेलबर्न, एजेंसी

खिलाड़ियों के विद्रोह से बीपीएल अधर में, नजमुल पर हुई कार्रवाई

ढाका, एजेंसी

संकट से जूझ रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) पर उसकी शीर्ष टी20 लीग के रुकने का खतरा मंडरा रहा था जब सीनियर राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने निदेशक नजमुल इस्लाम को अपमानजनक टिप्पणियों के लिए बर्खास्त नहीं करने पर बोर्ड के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बीसीबी ने हालांकि उन्हें अपनी वित्त समिति के प्रमुख के पद से हटा दिया। बीसीबी के अहम पद से नजमुल को हटाए जाने के बावजूद बृहस्पतिवार को होने वाले बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के दो मैच स्थगित कर दिए गए और खिलाड़ियों के कड़े रुख के कारण टूर्नामेंट अनिश्चितताओं से घिर गया है। बीपीएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बीसीबी निदेशक के पद से नजमुल को तुरंत हटाने की अपनी मांग पर एकजुट थे। खिलाड़ियों

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यह सुचित करना चाहता है कि हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में बीसीबी अध्यक्ष ने नजमुल इस्लाम को वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का फैसला किया है। अगले आदेश तक बीसीबी अध्यक्ष वित्त समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभालेंगे। बीसीबी दोहराता है कि क्रिकेटर्स के हित उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र के तहत खिलाड़ियों के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

-बीसीबी

और जनता के दबाव में बीसीबी को कार्रवाई करनी पड़ी और नजमुल को बोर्ड की वित्त समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। नजमुल हालांकि बोर्ड के निदेशक बने हुए हैं और अनुशासनात्मक कारणों से उन्हें इस पद से हटाय जा सकता है। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब नजमुल ने 'सुरक्षा चिंताओं' के

कोको गॉफ और वीनस विलियम्स रविवार से शुरू हो रहे टेनिस ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में आमने-सामने हो सकती हैं और यह मुकाबला फिर इतिहास में दर्ज हो सकता है।

पंद्रह साल की गॉफ ने जब ग्रैंड स्लैम में पदार्पण किया था तो उन्होंने विंबलडन में सात बार की मेजर विजेता वीनस को हरा दिया था। गॉफ ने 2019 में ऑल इंग्लैंड क्लब में उस जीत के बाद वीनस को अपने करियर के लिए बड़ी प्रेरणा बनने के लिए धन्यवाद दिया था और कहा था अगर वह नहीं होती तो मैं यहां नहीं होती। इसके बाद गॉफ ने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहले दौर में जीत हासिल की। अब वह तीसरी वरीय है। वहीं 45 साल की वीनस को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश मिला और वह पांच साल बाद इसमें खेल रही हैं।

मेलबर्न पार्क में शुरू होने वाले ग्रैंडस्लैम का बृहस्पतिवार को ड्रा निकाला गया जिसमें गॉफ का मुकाबला 91वीं रैंकिंग की कामिला खिम्पोवा से होगा जबकि 576 रैंकिंग की वीनस (1998 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पदार्पण करने वाली और दो बार फाइनल में पहुंचने वाली) का मुकाबला पहले दौर में 68 रैंकिंग की ओल्गा डैनिलोविच से होगा। वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनने वाली हैं और वह जापान की किमिको डेटा का रिकॉर्ड तोड़ देंगी जो 2015 में

मेलबर्न पार्क में पहले दौर में हारने के समय 44 साल की थीं। गॉफ को फिर से वीनस से भिड़ने के लिए पहले दौर में जीत हासिल करनी होगी। पिछले दो हफ्तों में वीनस न्यूजीलैंड और होबार्ट में हुए टूर्नामेंट में खेलीं लेकिन दोनों में ही पहले दौर में हार गईं। गॉफ और वीनस ड्रा के उसी हाफ में हैं जिसमें शीर्ष रैंकिंग वाली एरीना सवालेंका हैं, जो पिछले साल के फाइनल में मैडिसन कीज से उम्रदराज महिला बनने वाली हैं और वह जापान की किमिको डेटा का रिकॉर्ड तोड़ देंगी जो 2015 में

में खिताब जीतकर अपने सत्र की शुरुआत की थी और तीसरे दौर में उनका सामना 2021 अमेरिकी ओपन विजेता एमा राडुकानु से हो सकता है। 17 गत चैंपियन कीज को छठे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला और चौथे नंबर की खिलाड़ी अर्मांडा एर्निसिमोवा के साथ उसी क्वार्टर में रखा गया है। वहीं दूसरी रैंकिंग की इगा स्विगतेक मेलबर्न पार्क में अपना पहला खिताब जीतकर करियर ग्रैंडस्लैम हासिल करना चाहती हैं। वह चौथे दौर में चार बार की मेजर विजेता नाओमी ओसाका से भिड़ सकती हैं। वहीं यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच भी ड्रा के एक ही हाफ में हैं जिससे मत चैंपियन और 24 बार के मेजर विजेता के बीच संभावित सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है। जोकोविच ने 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीते हैं, लेकिन 2023 के बाद से मेलबर्न पार्क में सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए हैं।